



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 13—सितम्बर 19, 2008 (भाद्रपद 22, 1930)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 13—SEPTEMBER 19, 2008 (BHADRA 22, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 2008

(थल सेना विभाग)

सं. 454, दिनांक 20 अगस्त 2008—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अधीन और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 10(3)(1)/05/डी(मेड) दिनांक 28 अक्टूबर 2005 और 29 अक्टूबर 2007 के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

रणजीत पबॉर (डीएस-12302वाई), 31 मार्च 2008

विश्वनाथ उदयशंकर सूर्यकांत (डीएस-12303एफ), 01 अप्रैल 2008

महाजन चैतन्य अरविंद (डीएस-12304के), 01 अप्रैल 2008

अंकुरिता शर्मा (डीएस-12305एम), 01 अप्रैल 2008

गाडिचेरला शांति स्मिता (डीएस-12306), 10 अप्रैल 2008

थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

कैप्टन के पद पर (परख पर)

श्याम सखुजा (डीएस-12251डब्ल्यू), ए डी कोर, 16 अक्टूबर 2007

(चेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 16 अक्टूबर 2004 से दी जाती है। इसमें एम डी एस (तीन वर्ष) जो कि गोवा डेन्टल कालेज और अस्पताल, गोवा से किया है, उसमें 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

(12 अप्रैल 2008 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।)

शशीकला डी होनाहली (डीएस-12181एच), ए डी कोर, 04 मार्च 2006

(वैतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 04 सितम्बर 2005 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

(05 अप्रैल 2008 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।)

डॉ० के तनेजा
मेजर जनरल
ए. डी. ओ. डी. एस

सेना शाखा

सं. 455, दिनांक 21 अगस्त 2008--

नियमित सेना
अल्प कालीन कमीशन
परखार्थीन कप्तान के रैंक में

अवनिन्दर कुमार (वीएस-1140वाय), आर बी सी, 12 मई 2008
प्रमोद यू (वीएस-1141एफ), आर बी सी, 12 मई 2008
राम रतन (वीएस-1142के), आर बी सी, 12 मई 2008
विकास सकलानी (वीएस-1143एम), आर बी सी, 12 मई 2008
वीर बहादुर सिंह (वीएस-1144पो), आर बी सी, 12 मई 2008
प्रिंस सी कुरियन (वीएस-1145एक्स), आर बी सी, 12 मई 2008
हरमिंदर सिंह भोलिया (वीएस-1146ए), आर बी सी, 12 मई 2008
थीर्था प्रसाद सी एस (वीएस-1147एच), आर बी सी, 12 मई 2008

पी रत्ना शास्त्री
अवर सचिव

सं. 456, दिनांक 21 अगस्त 2008--राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

नियमित सेना
स्थायी कमीशन

(क) निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 16 अप्रैल 2008 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 16 अप्रैल 2008 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

नाम, एस एस सं., आई सी सं., आर्बिट और आर्म/सर्विस
अनुराग शर्मा (एसएस-38131) (आईसी-56526वाई), आटी

(ख) उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

(i) वैतन वृद्धि के लिये तारीख - 04 सितम्बर 1999

(ii) पदोन्नति के लिये तारीख - 04 मई 2001

(इस बैच के अधिकारियों को जिन्हें 5 वर्ष बाद स्थायी कमीशन प्रदान किया गया था उनकी तुलना में 12 महीने वरिष्ठता कम कर देने के बाद)

(ग) उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई है।

राष्ट्रपति तथा संशोधित क्रियेय थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

नियमित सेना
स्थायी कमीशन

(क) निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 06 सितम्बर 2008 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर, 06 सितम्बर 2008 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

नाम, एस एस सं., आई सी सं., आर्बिट और आर्म/सर्विस
सुपिंदर सिंह सेठे (एसएस-40253) (आईसी-65902एच), ईजीनियर्स
पवन यादव (एसएस-40263) (आईसी-65905डब्ल्यू), ई एन ई

(ख) उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:-

(i) वैतन वृद्धि के लिये तारीख - 06 नवम्बर 2001

(ii) पदोन्नति के लिये तारीख - 06 नवम्बर 2001

(ग) उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई है।

बि एस रत्नाडे
कमंडल
कमंडल एम एस-7

(सेना शाखा)

सं. 457, दिनांक 21 अगस्त 2008--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

नियमित सेना
(विशेष आयोग)

निम्नलिखित 16 (सौसठ) एन सी बॉय को अनुदेश 5/97 के अंतर्गत संलिखित सेना सेवा में 10 दिसम्बर 2007 के पद पर विशेष आयोग प्रदान किया जाता है :-

आई एम ए सं., नाम, सैन्य सं., पैतृक आर्म/सर्विस, एस सी सं. और आर्बिट सर्विस आर्म

एस/612, नीरज कुमार (3997862वाई), इन्फैंट्री, (एससी-00534एल),
ए ओ सी

एस/622, पी खातिरवेलु (जेसी-376059एम), सिग्नल्स,
(एससी-00535एन), सिग्नल्स

एस/631, विक्रम सिंह रावत (7778523वाई), सी एम पी,
(एससी-00536डब्ल्यू), ए ए डी

एस/621, सोमसुन्दरम पी (13464895एल), ए सी,
(एससी-00537वाई), इंजीनियर्स

एस/616, हरिबाबु आर (14639654एन), ई एम ई,
(एससी-00538एफ), ई एम ई

एस/614, प्रवीण कुमार चौधरी (14822029ए), ए एस सी,
(एससी-00539के), इन्फैंट्री

एस/613, बिजु आर (15767143एल), ए ए डी, (एससी-00540वाई),
ए सी

एस/611, दीपक सिंह गटवाल (15467637डब्ल्यू), ए सी,
(एससी-00541एफ), आर्टी

एस/618, राम सिंह (14639987ए), ई एम ई, (एससी-00542के),
ई एम ई

एस/615, दिलीप सिंह नाथावत (1491377वाई), ई एम ई,
(एससी-00543एम), इन्फैंट्री

एस/630, देवेन्द्र कुमार सिंह (9512859एफ), ए ई सी,
(एससी-00544पी), इन्फैंट्री

एस/623, अमित थापा (5046671ए), इन्फैंट्री, (एससी-00545एक्स),
आर्टी

एस/632, मधु पी सी (9512865पी), ए ई सी, (एससी-00546ए),
इन्फैंट्री

एस/620, ऋषि मनराल (4075197एफ), ए एस सी,
(एससी-00547एच), इन्फैंट्री

एस/617, पीडप्पा कोटगो (15768745एल), ए ए डी,
(एससी-00548एल), इंजीनियर्स

एस/619, तारकेश्वर पान्डेय (1490273एल), ए ओ सी,
(एससी-00549एन), आर्टी

नीलेश चौधरी
मेजर
एम एस 8वी

(थल सेना विभाग)

सं. 458, दिनांक 22 अगस्त 2008--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना
दन्त कोर अधिकारियों/अधिकारी को दो वर्ष की परखावधि सफलतापूर्वक

समाप्त करने पर सेना अनुदेश 37/78 के अन्तर्गत स्थाई कमीशन में पक्का
करते हैं :-

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
स्थायी कमीशन
स्थायी करण

कैप्टन युवराज ईसार (डीआर-10579वाई), 19 मई 2005

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारी को एक वर्ष की
परखावधि सफलतापूर्वक समाप्त करने पर सेना अनुदेश 15/79 के अन्तर्गत
अल्पकालीन कमीशन में पक्का करते हैं :-

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
अल्पकालीन कमीशन
स्थायीकरण

कैप्टन शेरान मुखर्जी (डीएस-12185वाई), 09 मार्च 2006

डी के तनेजा
मेजर जनरल
ए डी जी डी एस

सेना सचिव शाखा

सं. 459, दिनांक 22 अगस्त 2008--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति
करती है :-

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

रैंक. नाम, आईसी सं., आर्म और ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी
तिथि

कर्नल चंदन चटर्जी (आईसी-39855), इंजि., 13 जून 2002

एम के फूकन
निदेशक एम एस (एक्स)

सेना शाखा

सं. 460, दिनांक 22 अगस्त 2008--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ए एम
सी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
मेजर से ले. कर्नल के पद पर

गगनदीप सिंह (एमआर-06670एक्स), 06 जून 2006

एस अग्रवाल (एमआर-06753एच), 04 जनवरी 2007

के एन राव (एमआर-06769एन), 04 जनवरी 2007

आशुनीष कुमार (एमआर-07680एन), 30 मार्च 2008

अजित भार्गव (एमआर-07623एम), 09 अप्रैल 2008
 विवेक उपाध्याय (एमआर-07627एच), 14 अप्रैल 2008
 रंजना भार्गव (एमआर-07956वाई), 15 अप्रैल 2008
 गौतम श्रीवास्तव (एमआर-06659आई), एएमसी, 22 जनवरी 2006
 के एन घोषाल (एमआर-06677एफ), एएमसी, 06 जून 2006
 मनमोहन राय (एमआर-07779के), एएमसी, 08 मार्च 2008
 बी एस चौहान (एमआर-06904डब्ल्यू), एएमसी, 03 अप्रैल 2008
 ज्योती जोशी (एमआर-07587एम), एएमसी, 29 अप्रैल 2008
 पी आर राय (एमआर-07517एम), एएमसी, 08 मई 2008
 मनोज कुमार अमर (एमआर-07940एम), एएमसी, 12 मई 2008
 बी एस सुहाग (एमआर-07497एल), एएमसी, 14 मई 2008
 अतिल कुमार (एमआर-07162एन), एएमसी, 10 अप्रैल 2006
 जे के कौरी (एमआर-06749ए), एएमसी, 04 जनवरी 2007
 प्रमन्या सिंह (एमआर-06759के), एएमसी, 04 जनवरी 2007
 आर पीपरइया (एमआर-06836एन), एएमसी, 03 जुलाई 2007
 विवेक गुप्ता (एमआर 07619के), एएमसी, 07 अप्रैल 2008
 ए एन अधीलिका (एमआर-07503एम), एएमसी, 29 अप्रैल 2008
 आई वैकट नागेश (एमआर-07193एम), एएमसी, 28 मार्च 2006
 यू नन्द कुमार (एमआर-06791वाई), एएमसी, 04 जनवरी 2007
 राजेन्द्र पाल सिंह (एमआर-07552वाई), एएमसी, 23 मार्च 2008
 एम मुरुगानाथन (एमआर-07671एम), एएमसी, 24 मार्च 2008

कक्षा से मेजर के पद पर

जी परमेश्वर रेड्डी (एमआर-07637एम), एएमसी, 16 जुलाई 2006
 एन भगेश कुमार (एमआर 08388एल), एएमसी, 09 दिसम्बर 2007
 गौतम सिंह (एमआर-08508वाई), एएमसी, 03 जनवरी 2008
 जी दीपक चन्द्र रेड्डी (एमआर-07881एम), एएमसी, 04 जनवरी 2008

राजेश गिरधर (एमआर-08468एच), एएमसी, 17 फरवरी 2008

अंकुर जोशी (एमआर-07863के), एएमसी, 01 मार्च 2008

अंकुर गुप्ता (एमआर-08512एफ), एएमसी, 29 मार्च 2008

वाई सुरेश रेड्डी (एमआर 07357वाई), एएमसी, 24 जुलाई 2004

स्वर्धाइन लॉडर से विंग कमान्डर के पद पर

आर मोहनती (एमआर-06810वाई) (एफ-23455एफ), एएमसी,
 14 सितम्बर 2006

पी एम राव (एमआर 06733पी) (एफ-23160के), एएमसी,
 04 जनवरी 2007

जी रविन्द्रनाथ

त्रिगेडियर

उप डीजीएफएमएस (कार्मिक)

सं. 461, दिनांक 25 अगस्त 2008-- राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों
 को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा कमिशन (एस सी)

ले. से कप्तान

एस सी से., नाम और आर्म

00494 राम गोपाल सिंह, एएससी

00495 जितेन्द्र सिंह राना, इंसर्ज

00496 पंखु राम, एओसी.

00497 सत पाल, एओसी

00498 लक्ष्मण सिंह, एओसी

00499 श्री विवेक कुमार, आर्टी

00500 कुलदीप कुमार भनोट, आर्टी

00501 बी जी सुर्या प्रभा, एएससी

--10 दिसम्बर 2007--

00502 अजीत सिंह, एओसी

00503 किरण कुमार छेत्री, आर्टी

00504 जितेन्द्र बहादुर सिंह, आर्टी

00505 महेश सिंह किरौला, एओसी

00506 गोपराडे ए के, आर्टी

00507 जम्नालामाडाका म्हेश, आर्टी

00508 विनोद प्रताप, एओसी

00509 एस पेरिया कारुप्पन, आर्टी

--10 जून 2008

64934 त्रिलोक सिंह मेहरा, एएससी

64935 प्रदीप चौधरी, आर्टी

65471 पवन मोस बगर, इन्फैन्ट्री

--16 दिसम्बर 2004 --

65661 जसविंदर सिंह, इंजीनियर्स

--07 नवम्बर 2004--

65662 विनोद बाली, इंजीनियर्स

65663 विजयंत भूषण, ईएमई

65664 अजय नथवाल, इंजीनियर्स

65665 प्रदीप कुमार सचन, इंजीनियर्स

--10 नवम्बर 2004--

65669 धीरज सूदन, एओसी

--07 मई 2005--

65793 रतन सैन सिंह, सिग्नल्स

65794 नीरज ददवाल, ईएमई

65795 अजय कुमार शर्मा, इंजीनियर्स

65796 देव्याशीश सिन्हा, ईएमई

65797 फजलूल बारी सरशार, इंजीनियर्स

--16 दिसम्बर 2004--

65803 रतन बहादुर, मैक

65804 अभिषेक द्विवेदी, एसी

65805 हितेश कौशिक, एएससी

65806 मनोज कुमार द्विवेदी, आर्टी

65809 संदीप कुमार, एओसी

65810 निशांत करकी, एएससी

65811 राकेश सिंह, इन्फैन्ट्री

65815 नीरज कपूर, इंजीनियर्स

65818 विजय कुमार, आर्टी

65819 विशाल शर्मा, इन्फैन्ट्री

65820 अरूण गुलाटी, आर्टी

65821 भोसले अजय उत्तहास, इन्फैन्ट्री

65822 जयदीप शियोरन, इन्फैन्ट्री

65823 अमरिंदर सिंह बालिया, एसी

65825 एच लेखिष बाबु, इन्फैन्ट्री

65826 प्रदीप कुमार, इन्फैन्ट्री

65827 रमित हसीजा, एएडी

65829 गोपाल कृष्णन के, इन्फैन्ट्री

65830 मयूर खुरी, ईएमई

65831 गुरिंदर पाल सिंह गगनेजा, ईएमई

65832 अमबुज बल्लव साहू, इन्फैन्ट्री

65835 कसबा रत्नदीप विजय, सिग्नल्स

65837 संगसोंगबक विसुनामल, इन्फैन्ट्री

65838 राज कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री

65839 विश्वनाथ तिवारी, इन्फैन्ट्री

65841 कुलविंदर सिंह, एएससी

65842 पंकज कुमार, आर्टी

65844 विजय राव, एएससी

65846 दिलेर सिंह जाखर, आर्टी

65847 राजीव यादव, आर्टी

65849 धर्मजोत सिंह, इन्फैन्ट्री

65850 मनमल सिंह धनोआ, इन्फैन्ट्री

65851 अभिषेक राय, एएससी

65854 अमरदीप सिंह, एएससी

65855 सचिन कौशल, इंजीनियर्स

65856 कमलजीत सिंह लवना, इंजीनियर्स

65857 सरताज मेहता, आर्टी

65858 राहुल शर्मा, एओसी

65859 पंकज जसवाल, इंजीनियर्स

65861 गोपालकृष्ण जे, ईएमई

65862 अमित शर्मा, इंजीनियर्स

65863 अमित चौहान, इन्फैन्ट्री

65864 सूरज एस, इन्फैन्ट्री

65865 अभिलाष ओचूकलीक्केल, आर्टी

65866 सुशील लखनपाल, ईएमई

65868 अमरिंदर सिंह, इन्फैन्ट्री

65869 मनदीप शेरगिल, इन्फैन्ट्री

65870 जोगिंदर शेखावत, एएससी

65871 अरनब मिश्रा, इन्फैन्ट्री

65873 जयदीप सिंह, एसी

65875 अभिलाष वर्गीस, इन्फैन्ट्री

65876 जितेन्द्रा चतुर्वेदी, आर्टी

65877 विशाल थापा, सिग्नल्स

65879 शशीकिरण देशपाण्डे, इंजीनियर्स

65881 अंकुर सागर, ईएमई

65883 दीपक चन्दरन एम, ईएमई

65886 मयूर धवज नथावर, एसी

--08 नवम्बर 2005--

67830 जेसफ एन्थोनी सी, एईसी

67836 राजेश पाठिल, एईसी

67841 सतीश कुमार सिंह, एईसी

67843 अमरदीप सिंह, एईसी

67849 अग्निवेश पाण्डे, एईसी

67850 प्रसून कार्तिक गोस्वामी, एईसी

67856 अमोल विभूति कुजूर, एईसी

67870 कमल कपूर, एईसी

67872 पी डेविडसन सन्तोषराज, एईसी

67879 पी श्रीनिवास, एईसी

67881 अमित मेलेट, एईसी

--10 दिसम्बर 2007--

67282 मनोज लखेरा, एईसी

67298 छाया निकुल कश्यप कुमार, एईसी

67308 वैलसवराणू पवन कुमार, एईसी

67315 आशीश के परमार, एईसी

67335 सचिन चमोली, एईसी

67341 एकज कुमार, एईसी

67342 अमरजीत सिंह, एईसी

67346 श्याम कृष्णा टी पी, एईसी

67358 प्रदीप सिंह खाती, एईसी

67363 रतीश रमेश, एईसी

67373 किरणकरन बी, एईसी

67381 परजीत पाल सिंह, एईसी

--11 जून 2007--

64738 अमित विष्ट, सिग्नल्स

64739 हरिज प्रकाश सिग्नल्स

--10 दिसम्बर 2006--

65173 मनोष गुप्ता, एसी

--16 दिसम्बर 2004--

डब्ल्यूएस सी, नाम, आर्म्, वर्गीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वर्गीयता तिथि और कप्तान दिनांक से

डब्ल्यूएस-00856 विजयता ठाकुर, ईएमई, 20 मार्च 2004, डब्ल्यू एसईएसओ-23(नान टैक), 20 मार्च 2005/20 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-00870 धीप विदिशा भमेश्वर सुन्दर, सिग्नल्स, 20 मार्च 2002, डब्ल्यू एसईएसओ-23(नान टैक), 20 सितम्बर 2002/16 दिसम्बर 2004

डब्ल्यूएस-00880 गुंजन गुप्ता, सिग्नल्स, 20 मार्च 2002, डब्ल्यू एसईएसओ-23(टैक), 20 सितम्बर 2002/16 दिसम्बर 2004

डब्ल्यूएस-00908 रजनी शर्मा, जेन, 20 मार्च 2004, डब्ल्यू एसईएसओ-23(नान टैक), 20 मार्च 2005/20 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-00909 डिजेन्वोन कौर चावला, एएससी, 20 मार्च 2004, डब्ल्यू एसईएसओ-23(नान टैक), 20 मार्च 2005/20 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-00911 ललितिका शुक्ला, एएससी, 20 मार्च 2004, डब्ल्यू एसईएसओ-23(नान टैक), 20 मार्च 2005/20 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-00923 विद्या तायर, एएडी, 17 सितम्बर 2004, डब्ल्यू एसईएसओ-24(नान टैक), 17 सितम्बर 2005/17 सितम्बर 2007

डब्ल्यूएस-00930 रिपिता अग्रवाला, ईएमई, 17 सितम्बर 2002, डब्ल्यू एसईएसओ-24(टैक), 17 मार्च 2003/17 मार्च 2005

डब्ल्यूएस-00933 दिव्या गौर, एएससी, 17 सितम्बर 2004, डब्ल्यू एसईएसओ-24(नान टैक), 17 सितम्बर 2005/17 सितम्बर 2007

डब्ल्यूएस-00936 रत्ना मलिक, एएडी, 17 सितम्बर 2004, डब्ल्यू एसईएसओ-24(नान टैक), 17 सितम्बर 2005/17 सितम्बर 2007

डब्ल्यूएस-00988 याधव चारुशिला पधुकर, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2002, डब्ल्यू एसईएसओ-24(टैक), 17 मार्च 2003/17 मार्च 2005

डब्ल्यूएस-01002 नान्दनी मेन, सिग्नल्स, 19 मार्च 2003, डब्ल्यू एसईएसओ-25(टैक), 19 सितम्बर 2003/19 सितम्बर 2005

डब्ल्यूएस-01067 लीना यज्ञाज, एईसी, 19 मार्च 2005, डब्ल्यू एसईएसओ-25(नान टैक), 19 सितम्बर 2005/19 सितम्बर 2007

डब्ल्यूएस-01143 पदमान अनिता अशोक, ईएमई, 21 मार्च 2004, डब्ल्यू एसईएसओ-27(टैक), 21 सितम्बर 2004/21 सितम्बर 2006

डब्ल्यूएस-01166 अंचल पोखाल, ईएमई, 21 मार्च 2004, डब्ल्यू एसईएसओ-27(टैक), 21 सितम्बर 2004/21 सितम्बर 2006

अल्प-कालीन सेवा कर्मचारी (मैन)

ले. से कप्तान

एसएस सी, नाम, आर्म्, वर्गीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वर्गीयता तिथि और कप्तान दिनांक से

एसएस-40426 राजेश कुमार एएडी, 06 सितम्बर 2003, एसएससी-76(नान टैक), 06 मई 2004/06 मई 2006

एसएस-40540 प्रभात शर्मा, ए.ओ.सी., 20 मार्च 2004, एसएससी-77(नान टैक), 20 अक्टूबर 2004/20 अक्टूबर 2006

एसएस-40639 ललित सहगल, इन्फैंट्री, 20 मार्च 2004,
एसएससी-77(नान टैक), 20 अक्टूबर 2004/20 अक्टूबर 2006

एसएस-40830 धर्मेन्द्र बी जडेजा, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2002,
एसएससी-21(टैक), 17 अक्टूबर 2002/16 दिसम्बर 2004

एसएस-40980 कोनजैयबम राजेश बंता सिंह, आर्टी, 17 सितम्बर 2004,
एसएससी-78(नान टैक), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2007

एसएस-41031 देवदत्त शर्मा, एओसी, 17 सितम्बर 2004,
एसएससी-78(नान टैक), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2007

एसएस-41048 आसिफ अहमद को, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2004,
एसएससी-78(नान टैक), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2007

एसएस-41305 देवाशिश मिश्रा, आर्टी, 19 मार्च 2005,
एसएससी-79(नान टैक), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41366 औचिन दीप शर्मा, एओसी, 19 मार्च 2005,
एसएससी-79(नान टैक), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस सं., नाम, आर्म, कमिशन की तिथि, वतियता तिथि, कोर्स,
संशोधित बरीयता तिथि और कप्तान दिनांक से

एसएस-39441 दिवेश सिन्हा, आर्टी, 01 सितम्बर 2001/01 सितम्बर
2001, एसएससी-72(एन टी), 01 मई 2002/16 दिसम्बर 2004

एसएस-40308 दीपक कुमार, इन्फैंट्री, 06 सितम्बर 2003/06 सितम्बर
2003, एसएससी-76(एन टी), 06 मई 2004/06 मई 2006

एसएस-41220 अमरजीत सिंह, मैक, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41223 प्रतीक प्रभाकर, आर्टी, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41224 अमित औक्ता, इन्फैंट्री, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41225 जसवीर सिंह, एओसी, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41240 आशिष अगाशे, एएडी, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41242 धर्मेन्द्र भट्ट, इन्फैंट्री, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41252 भानू प्रताप सिंह भालवाल, इन्फैंट्री, 19 मार्च 2005/
19 मार्च 2005, एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर
2007

एसएस-41262 पी डाल्लैनमावी गंगटे, इन्फैंट्री, 19 मार्च 2005/
19 मार्च 2005, एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर
2007

एसएस-41265 राजेश प्रकाश सोलंकी, इन्फैंट्री, 19 मार्च 2005/
19 मार्च 2005, एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर
2007

एसएस-41274 राम नरेश सिंह, एससी, 19 मार्च 2005/19 मार्च
2005, एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41287 अभिनव हान्द, एससी, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41291 दीपक शाही, आर्टी, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41293 दिग्विजय अन्ना साहेब देशमुख, आर्टी, 19 मार्च
2005/19 मार्च 2005, एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/
19 अक्टूबर 2007

एसएस-41300 बगायतकार अमोल संजीव, मैक, 19 मार्च 2005/
19 मार्च 2005, एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर
2007

एसएस-41304 पुष्पेन्द्र पाल सिंह, एसी, 19 मार्च 2005/19 मार्च
2005, एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41314 अहैबम बसंता सिंह, आर्टी, 19 मार्च 2005/19 मार्च
2005, एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41325 राकेश कुमार, एससी, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41332 ब्रिजेश सिंह, इन्फैंट्री, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41336 संदीप यादव, आर्टी, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41337 आत्मा प्रकाश, एओसी, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41339 आशिष त्रिपाठी, एएडी, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41340 महाजन अनूप अमोल, आर्टी, 19 मार्च 2005/19 मार्च
2005, एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41349 गौरव सूद, एसी, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41352 प्रादुत घोषाल, आर्टी, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41364 वैभव सिंह, एसी, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-41365 तुषार चौहान, इन्फैंट्री, 19 मार्च 2005/19 मार्च 2005,
एसएससी-79(एन टी), 19 अक्टूबर 2005/19 अक्टूबर 2007

एसएस-42125 पाटिल प्रशांत रविन्द्र, इंजीनियर्स, 16 सितम्बर 2006/
18 सितम्बर 2004, एसएससी-25(टी), 18 अक्टूबर 2004/18 अक्टूबर
2006

एसएस-42127 योगेश कुमार, इंजीनियर्स, 16 सितम्बर 2006/
18 सितम्बर 2004, एसएससी-25(टी), 18 अक्टूबर 2004/18 अक्टूबर
2006

एसएस-42128 अभिषेक मिश्र, सिग्नल्स, 16 सितम्बर 2006/18 सितम्बर 2004, एसएससी-25(टी), 18 अक्टूबर 2004/18 अक्टूबर 2006

एसएस-42129 नरेश जाजू डी, ईएमई, 16 सितम्बर 2006/18 सितम्बर 2004, एसएससी-25(टी), 18 अक्टूबर 2004/18 अक्टूबर 2006

एसएस-42139 अभाया कुमार चतुर्वेदी, ईएमई, 16 सितम्बर 2006/18 सितम्बर 2004, एसएससी-25(टी), 18 अक्टूबर 2004/18 अक्टूबर 2006

एसएस-42141 अंकित चौधरी, सिग्नल्स, 16 सितम्बर 2006/18 सितम्बर 2004, एसएससी-25(टी), 18 अक्टूबर 2004/18 अक्टूबर 2006

एसएस-42144 सुशील कुमार, ईएमई, 16 सितम्बर 2006/18 सितम्बर 2004, एसएससी-25(टी), 18 अक्टूबर 2004/18 अक्टूबर 2006

एसएस-40508 विशाल अरोड़ा, ईएमई, 20 मार्च 2004/20 मार्च 2002, एसएससी-20(टी), 20 अप्रैल 2002/16 दिसम्बर 2004

एसएस-40578 चरणदीप सिंह मैनी, इन्फैंट्री, 20 मार्च 2004/20 मार्च 2004, एसएससी-77(एनटी), 20 अक्टूबर 2004/20 अक्टूबर 2006

एसएस-40670 अभिषेक जोशी, आर्टी, 20 मार्च 2004/20 मार्च 2004, एसएससी-77(एनटी), 20 अक्टूबर 2004/20 अक्टूबर 2006

एसएस-40863 संदीप कुमार रनाऊत, सिग्नल्स, 17 सितम्बर 2004/17 सितम्बर 2002, एसएससी-21(टी), 17 अक्टूबर 2002/16 दिसम्बर 2004

एसएस-40879 बॉलिंगडॉन चौसिंग, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2004/17 सितम्बर 2004, एसएससी-78(एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2007

एसएस-41030 अशोक कुपार यादव, आर्टी, 17 सितम्बर 2004/17 सितम्बर 2004, एसएससी-78(एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2007

एसएस-41066 समीर सिंह, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2004/17 सितम्बर 2004, एसएससी-78(एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2007

एसएस सी., नाम, आयु, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि और कप्तान दिनांक से

एसएस-41513 सुधीर गुलिया, मैक, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41530 हरनोत सिंह सांगा, मैक, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41537 शम्भोर सिंह, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41540 सौरभ शर्मा, एएडो, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41555 दुष्यंत मैक, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41560 लक्ष्मण सिंह, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41564 संजोव जी, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41579 मुकेश शर्मा, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41586 देविन्दर कुमार भागत, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41595 सुमन गान्धी माराभातुला, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41597 जितेन्द्र नरुका, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41601 सुकान्त कृष्ण जोशी, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41638 गौरव पान्डे, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41641 गोलबेलकर हेमंग कपलाकर, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41648 विश्वासराव प्रशांत प्रकाश, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41651 सुबोध सूदन, मैक, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41678 अक्षय दीप शर्मा, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41680 पुनीत आनंद मिश्रा, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41684 श्री अरविन्द रेड्डी, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41691 रोहित कुमार दलाल, एओसी, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41703 हर्षरति सिंह बतिया, एससी, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41708 टी संतोष, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41711 दिग्विजय जुवाल, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

एसएस-41724 रोहित अत्रे, इन्फैंट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006/17 अप्रैल 2008

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यूएसईएस)

ले. से कप्तान

डब्ल्यूएस सं., नाम, आर्मी, बरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित बरीयता तिथि और कप्तान दिनांक से

डब्ल्यूएस-00815 सरोज गुप्ता, एओसी, 06 सितम्बर 2003, डब्ल्यूएसईएसओ-22(नानटैक), 06 सितम्बर 2004/06 सितम्बर 2006

डब्ल्यूएस-00875 गुराई जसमीत कौर जगतार सिंह, एएससी, 20 मार्च 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-23(नानटैक), 20 मार्च 2005/20 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-00910 बबिता, इंजीनियर्स, 20 मार्च 2002, डब्ल्यूएसईएसओ-23(टैक), 20 सितम्बर 2002/16 दिसम्बर 2004

डब्ल्यूएस-00915 पल्सवो जामवाल, एओसी, 20 मार्च 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-23(नानटैक), 20 मार्च 2005/20 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-00916 प्रीती तिघारी, एओसी, 20 मार्च 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-23(नानटैक), 20 मार्च 2005/20 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-00932 दारुवाला अर्नाबज कोरसी, सिग्नल्स, 17 सितम्बर 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-24(नानटैक), 17 सितम्बर 2005/17 सितम्बर 2007

डब्ल्यूएस-00942 शालिनी कंदारी, एईसी, 17 सितम्बर 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-24(नानटैक), 17 मार्च 2005/17 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-00951 मोनाल चौहान, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2002, डब्ल्यूएसईएसओ-24(टैक), 17 मार्च 2003/17 मार्च 2005

डब्ल्यूएस-01112 गीताजली सनन, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2003, डब्ल्यूएसईएसओ-26(टैक), 17 मार्च 2004/17 मार्च 2006

डब्ल्यूएस-01173 तरिनी शुक्ला, इंजीनियर्स, 21 मार्च 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-27(टैक), 21 सितम्बर 2004/21 सितम्बर 2006

डब्ल्यूएस-01212 विभूती शर्मा, सिग्नल्स, 18 सितम्बर 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-28(टैक), 18 मार्च 2005/18 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-01223 अलाम् ए एल, इंजीनियर्स, 18 सितम्बर 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-28(टैक), 18 मार्च 2005/18 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-01225 पिल्लई अनिता रवि, ईएमई, 18 सितम्बर 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-28(टैक), 18 मार्च 2005/18 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-01230 आकृति शर्मा, ईएमई, 18 सितम्बर 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-28(टैक), 18 मार्च 2005/18 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-01240 सुनीधी ऐरी, सिग्नल्स, 18 सितम्बर 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-28(टैक), 18 मार्च 2005/18 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-01241 सरबजीत को गिल, ईएमई, 18 सितम्बर 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-28(टैक), 18 मार्च 2005/18 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-01257 ठाकुर रूपाली दिलीप सिंह, सिग्नल्स, 18 सितम्बर 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-28(टैक), 18 मार्च 2005/18 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-01270 जयश्री नायर, सिग्नल्स, 18 सितम्बर 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-28(टैक), 18 मार्च 2005/18 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-01274 संदीप कौर, सिग्नल्स, 18 सितम्बर 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-28(टैक), 18 मार्च 2005/18 मार्च 2007

डब्ल्यूएस-01278 मैत्री यादव, ईएमई, 18 सितम्बर 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-28(टैक), 18 मार्च 2005/18 मार्च 2007

डब्ल्यूएस सं., नाम और आर्मी

डब्ल्यूएस-00687 रिया श्रीवास्तव, एओसी

--07 सितम्बर 2007--

डब्ल्यूएस-00816 सुनैना भूरे, इंटर

--06 सितम्बर 2006--

डब्ल्यूएस-00863 गरिमा सिंह, इंजीनियर्स

डब्ल्यूएस-00882 अंशुला, ईएमई

डब्ल्यूएस-00900 पोद्दार शुभांगी उत्तमकुमार, सिग्नल्स

--20 मार्च 2007--

डब्ल्यूएस-00742 सुनीता बिष्ट, इंजीनियर्स

डब्ल्यूएस-00753 पूर्णिमा कुमारी, एओसी

डब्ल्यूएस-00768 निशा जोशी, सिग्नल्स

डब्ल्यूएस-00791 पुनिता, ईएमई

--08 मार्च 2008--

डब्ल्यूएस-01003 अनुराधा मिश्रा, एएससी, 19 मार्च 2005, डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

डब्ल्यूएस-01008 नवनिका कपिल, ईएमई, 19 मार्च 2005, डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

डब्ल्यूएस-01012 पुष्पा कुमारी, इंजीनियर्स, 19 मार्च 2005, डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

डब्ल्यूएस-01015 भावना, एएडी, 19 मार्च 2005, डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

डब्ल्यूएस-01026 पूजा चौहान, इंजीनियर्स, 19 मार्च 2005, डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

डब्ल्यूएस-01030 निधि बागदवाल, एएससी, 19 मार्च 2005, डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

डब्ल्यूएस-01040 सलीनी कुटारी, एएडी, 19 मार्च 2005, डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

डब्ल्यूएस-01041 अनीता सरल, एओसी, 19 मार्च 2005, डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

डब्ल्यूएस-01042 सनिधा शर्मा, इंजीनियर्स, 19 मार्च 2005, डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

डब्ल्यूएस-01043 शारदा त्रिपाठी, एओसी, 19 मार्च 2005, डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

डब्ल्यूएस-01044 आरती चोपड़ा, एओसी, 19 मार्च 2005, डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

डब्ल्यूएस-01045 तृषाली, इन्स्ट, 19 मार्च 2005,
डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

डब्ल्यूएस-01046 काजल बालाजी, एओसी, 19 मार्च 2005,
डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

डब्ल्यूएस-01050 गुंजन सेठ, ईएमई, 19 मार्च 2005,
डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

डब्ल्यूएस-01055 स्मिता एम ए, एएससी, 19 मार्च 2005,
डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

डब्ल्यूएस-01060 शिवानी, इंजीनियर्स, 19 मार्च 2005,
डब्ल्यूएसईएसओ-25(एनटी), 19 मार्च 2006/19 मार्च 2008

जसवंत सिंह
संयुक्त निदेशक
एसएस-8सी

थल सेना विभाग

सं. 462, दिनांक 25 अगस्त 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं

नियमित सेवा

सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर पदोन्नति दिनांक

पेड कार्यकारी सूबेदार रम बहादुर थापा (जेसी-826144एफ),
01 मार्च 2008

पेड कार्यकारी सूबेदार मिथिलेश सिंह (जेसी-826145के), 01 अप्रैल
2008

पेड कार्यकारी सूबेदार प्रयाग सिंह (जेसी-826146एम), 01 अप्रैल
2008

प्रति पाल सिंह
अधर सचिव

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (यांत्रिक परिवहन और पूर्ति)

सं. 463, दिनांक 26 अगस्त 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नायब सूबेदार लिपिक जीटी

हवलदार राम राज (सं. 6379145एन अब जेसी-664762एम),
25 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार कमलेश कुमार (सं. 6379538के अब जेसी-664712डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2007

हवलदार दीनानाथ राम (सं. 6379894के अब जेसी-664785एन),
24 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 25 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 6380106एफ अब जेसी-664763पी),
27 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार कैलाशसिंह कानांवांशी (सं. 6380123एफ अब जेसी-664771एन), 01 नवम्बर 2007

हवलदार ललता प्रसाद (सं. 6380138के अब जेसी-664766एच),
18 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार अभय कृतिरह यादव (सं. 6380142एन अब जेसी-664765एच), 26 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार पाले राम (सं. 6380149डब्ल्यू अब जेसी-664770एल),
03 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार भेंबरसिंह राजोर (सं. 6380299एम अब जेसी-664773आई),
01 नवम्बर 2007

हवलदार ब्रिजपाल सिंह (सं. 6380407एल अब जेसी-664767एन),
31 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रुद्रप्रताप सिंह (सं. 6380416एम अब जेसी-664769डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2007

हवलदार दीनानाथ यादव (सं. 6380477के अब जेसी-664768एन),
01 नवम्बर 2007

हवलदार गिरीश नारायण तिहारी (सं. 6380510डब्ल्यू अब जेसी-664774एफ), 01 नवम्बर 2007

हवलदार अशोक कुमार गुप्ता (सं. 6380512एफ अब जेसी-664775के), 01 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार अभिचंद सिंह (सं. 6380554एन अब जेसी-664776एम),
01 नवम्बर 2007

हवलदार भास्करानंद (सं. 6380601ए अब जेसी-664777पी),
01 नवम्बर 2007

हवलदार जयप्रकाश (सं. 6380657एम अब जेसी-664778एक्स),
01 नवम्बर 2007

हवलदार वासुदेवन पी (सं. 6380702एन अब जेसी-664779ए),
01 नवम्बर 2007

हवलदार राधाबल्लभ सुमार (सं. 6380712एक्स अब
जेसी-664780पी), 01 नवम्बर 2007

हवलदार रमेशचंद शेखन (सं. 6380718वाई अब जेसी-664781एक्स),
01 नवम्बर 2007

हवलदार विजय कुमार (सं. 6471991एफ अब जेसी-664764एक्स),
25 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार कमल किशोर सिंह (सं. 13889096एफ अब
जेसी-664761के), 26 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सुधाकर पाठक (सं. 6379949एच अब
जेसी-664887डब्ल्यू), 23 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सूर्यनाथ सिंह यादव (सं. 6380483एक्स अब
जेसी-664843एम), 06 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश सिंह लगवाल (सं. 6380549एच अब
जेसी-664867एम), 16 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार नवीनचंद्र चांदोला (सं. 6387163एल अब जेसी-664890के),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार मनोज कुमार मोहंती (सं. 6387545पी अब
जेसी-664783एच), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार सयैद महम्मद जाहिद हुसैन (सं. 6388058एफ अब
जेसी-664784एल), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार एस सुकु (सं. 6388063एम अब जेसी-664869एफ),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार वेदप्रकाश (सं. 6388073डब्ल्यू अब जेसी-664889पी),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार अजीत कुमार (सं. 6388076के अब जेसी-664870डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार हरीवीर सिंह (सं. 6388080एम अब जेसी-664872एफ),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 6388139पी अब जेसी-664891एम),
01 दिसम्बर 2007

सूबेदार लिपिक बीडी

नायब सूबेदार ईशप्पा बिरादर (जेसी-642342एम), 20 अक्टूबर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अनुपम सिंह दहिया (जेसी-642376ए), 17 अक्टूबर
2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुदर्शन सिंह (जेसी-642450डब्ल्यू), 02 नवम्बर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार घी (जेसी-642457ए), 03 अक्टूबर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सलीम बैग (जेसी-642494एन), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार वेदप्रकाश (जेसी-642498के), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार अभय चरन मंडल (जेसी-642500डब्ल्यू), 12 नवम्बर
2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार संतोष कुमार (जेसी-642645एफ), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-642661वाई), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार हरिदास दास (जेसी-642671एच), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार रत्नवीर (जेसी-642501वाई), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार हेमंत कुमार सिंह (जेसी-642502एफ), 01 नवम्बर
2007

नायब सूबेदार आदित्य कुमार वर्मा (जेसी-642506एक्स), 01 नवम्बर
2007

नायब सूबेदार किरन दान तोपर (जेसी-642507ए), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार सुभाष चंदर (जेसी-642508एच), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जेसी-642510ए), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार उमाल सिंह (जेसी-642511एच), 03 नवम्बर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम दुलार तिवारी (जेसी-642512एल), 01 नवम्बर
2007

नायब सूबेदार नाराचंद यादव (जेसी-642643डब्ल्यू), 01 नवम्बर
2007

नायब सूबेदार लिपिक : जी डी/एस डी

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 13887264डब्ल्यू अब जेसी-665042एक्स), 10 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार दिलक राज (सं. 6379366ए अब जेसी-664956एम), 31 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार देवेन्द्र सिंह टोंगर (सं. 6379975के अब जेसी-664923के), 01 जनवरी 2008

हवलदार दुलबुले प्रभाकर बालाराम (सं. 6380000पी अब जेसी-665041पी), 22 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार बिसनू कान्त राय (सं. 6380031पी अब जेसी-664921वाइ), 01 जनवरी 2008

हवलदार विरकान्ते चुये (सं. 6380044एम अब जेसी-664923एफ), 01 जनवरी 2008

हवलदार राम फल (सं. 6380060के अब जेसी-664924एम), 01 जनवरी 2008

हवलदार बिनोद कुमार गुप्ता (सं. 6380070एन अब जेसी-664925पी), 06 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 6380068डब्ल्यू अब जेसी-665043ए), 12 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार पैथी सतिश प्रभाकर (सं. 6380076पी अब जेसी-664926एक्स), 01 जनवरी 2008

हवलदार धरम सिंह (सं. 6380084एन अब जेसी-664927ए), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार : व्यक्तिगत सहायक

हवलदार अश्वय कुमार (सं. 6378201पी अब जेसी-664707डब्ल्यू), 10 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सुनिता कुमार राणा (सं. 1081560ए अब जेसी-664988एक्स), 01 जनवरी 2008

हवलदार उशीकुमान जैजी (सं. 14496479वाइ अब जेसी-664991एक्स), 01 जनवरी 2008

हवलदार बी बी सिंह (सं. 6382673ए अब जेसी-665039एक्स), 01 फरवरी 2008

हवलदार जेम्स कंसी (सं. 6382756एन अब जेसी-665040एम), 01 फरवरी 2008

हवलदार मुगम्बर सिंह (सं. 6383116डब्ल्यू अब जेसी-664989ए), 01 जनवरी 2008

हवलदार आर सिवान (सं. 5245585के अब जेसी-664916एन), 01 जनवरी 2008

हवलदार के बाला कुमार (सं. 6383704के अब जेसी-664990पी), 01 जनवरी 2008

हवलदार शेख हज़रत अली (सं. 6385557एल अब जेसी-665036के), 22 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्रा कुमार बार्रिक (सं. 6385827पी अब जेसी-665037एम), 31 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बीडी राने (सं. 6385426ए अब जेसी-665038पी), 17 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लिपिक : जी डी/एस डी

हवलदार नरेश कुमार (सं. 6379835एक्स अब जेसी-664649एवर), 01 सितम्बर 2007

हवलदार जालिम सिंह (सं. 6379849एक्स अब जेसी-664572ए), 01 सितम्बर 2007

हवलदार मुरली आर (सं. 6379855एल अब जेसी-664578एफ), 01 सितम्बर 2007

हवलदार समर घोष (सं. 6379857डब्ल्यू अब जेसी-664648पी), 01 सितम्बर 2007

हवलदार राम चहाद साव (सं. 6379860डब्ल्यू अब जेसी-664568एक्स), 01 सितम्बर 2007

हवलदार संजय कुमार मंडल (सं. 6379867ए अब जेसी-664569ए), 01 सितम्बर 2007

हवलदार राज भाला (सं. 6379870ए अब जेसी-664645एफ), 01 सितम्बर 2007

हवलदार धन राज (सं. 6379872एल अब जेसी-664570पी), 01 सितम्बर 2007

हवलदार सुधानु विश्वास (सं. 6379875वाई अब जेसी-664571एक्स),
01 सितम्बर 2007

हवलदार तब नारायण पांडेय (सं. 6379884ए अब जेसी-664573एच),
01 सितम्बर 2007

हवलदार रविन्द्र कुमार औषग (सं. 6379886एल अब जेसी-664574एल),
01 सितम्बर 2007

हवलदार भीष्मदेव हाजरा (सं. 6379889वाई अब जेसी-664575एन),
01 सितम्बर 2007

हवलदार भोलानाथ शाह (सं. 6379898वाई अब जेसी-664576डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2007

हवलदार अकुल चन्द्र मंडल (सं. 6379901पी अब जेसी-664577वाई),
01 सितम्बर 2007

हवलदार राम कुमार वर्मा (सं. 6379914ए अब जेसी-664646के),
01 सितम्बर 2007

हवलदार राम सुमिरन (सं. 6379915पी अब जेसी-664647एम),
01 सितम्बर 2007

हवलदार महेश चन्द्रा (सं. 6379924डब्ल्यू अब जेसी-664650एम),
01 सितम्बर 2007

हवलदार सुन्दर प्रसाद सिंह (सं. 6379947एक्स अब जेसी-664651पी),
01 सितम्बर 2007

हवलदार रमेश कुमार पाण्डेय (सं. 6385887के अब जेसी-664644वाई), 28 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार पारा शर्मा पाटिल (सं. 6379073पी अब जेसी-664796ए),
01 नवम्बर 2007

हवलदार विश्वनाथ सिंह (सं. 6379864एम अब जेसी-664845एक्स),
01 नवम्बर 2007

हवलदार स्वामी दयाल (सं. 6379917ए अब जेसी-664787वाई),
26 अक्टूबर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार कैलाश पाल (सं. 6379913के अब जेसी-664786डब्ल्यू),
27 अक्टूबर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 6379969डब्ल्यू अब जेसी-664788एफ),
29 अक्टूबर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सूर्यवन्सी विलाश पान्डुरंग (सं. 6379979ए अब जेसी-664789के), 29 अक्टूबर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार शशी कुमार (सं. 6379988एफ अब जेसी-664790वाई),
26 अक्टूबर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सूर्या प्रकाश पाठक (सं. 6380002ए अब जेसी-664793एम),
15 नवम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार शिवाजी गिरी (सं. 6380007वाई अब जेसी-664794पी),
01 नवम्बर 2007

हवलदार श्री भावान औझा (सं. 6380009के अब जेसी-664795एक्स),
01 नवम्बर 2007

हवलदार परतपाल जैलेश सिंह (सं. 6380013ए अब जेसी-664844पी),
06 नवम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार जय नाथ साहू (सं. 6380035एल अब जेसी-664798एल),
01 नवम्बर 2007

हवलदार श्री दिनेश कुमार सविता (सं. 6380034ए अब जेसी-664797एच), 01 नवम्बर 2007

हवलदार कदम लक्ष्मण बलवन्त (सं. 6380055वाई अब जेसी-664799एन), 01 नवम्बर 2007

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 6376716डब्ल्यू अब जेसी-664847एच),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार लौसू सिंह (सं. 6376826एल अब जेसी-664809एम),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार जगा बन्धु विश्वास (सं. 6377357ए अब जेसी-664848एल),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार भोज राज सिंह (सं. 6377938एक्स अब जेसी-664806वाई),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार जीवन कुमार (सं. 13890607एम अब जेसी-664808के),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार के सुब्बाया (सं. 6379092ए अब जेसी-664919एफ),
29 नवम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार दिनेश प्रसाद (सं. 13887032एक्स अब जेसी-664807एफ),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार दया नन्द (सं. 13890924एन अब जेसी-664810एफ),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार छेदी लाल (सं. 6379840एच अब जेसी-664801ए),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार प्रताप चन्द (सं. 6379896पी अब जेसी-664800एक्स),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार रमेश तिवारी (सं. 6380001एक्स अब जेसी-664792के),
29 अक्टूबर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार प्रभाकर दुबे (सं. 6379999एन अब जेसी-664791एफ),
27 अक्टूबर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार मेहर सिंह (सं. 6382238एन अब जेसी-664920डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार मो शरिफुल इसलाम (सं. 6385830पी अब जेसी-664802एच),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार प्रावन्जन बरिया (सं. 6385802एच अब जेसी-664846ए),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार दीपक कुमार मलिक (सं. 6386700वाई अब
जेसी-664803एल), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार जितेंद्र कुमार (सं. 6387080ए अब जेसी-664952वाई),
05 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 6387109एक्स अब जेसी-664804एन),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार हरेश चन्द्र (सं. 6387329एफ अब जेसी-664805डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार : व्यक्तिगत सहायक

हवलदार रमेश कुमार पांडेय (सं. 6385887के अब जेसी-664644वाई),
28 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार जी एम राजा राम (सं. 2479189एफ अब जेसी-664554एक्स),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार दल चन्द (सं. 6382904एन अब जेसी-664551के),
02 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार अरुण के एस चौहान (सं. 6383117वाई अब जेसी-664552एन),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार राजेन्द्र कुमार अवाले (सं. 6383164डब्ल्यू अब
जेसी-664553पी), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार सतीश चन्द्रा (सं. 14912346एच अब जेसी-664813पी),
01 नवम्बर 2007

हवलदार प्रमोद कुमार पांडा (सं. 6381230पी अब जेसी-664732पी),
01 नवम्बर 2007

हवलदार रघुराज सिंह (सं. 6381905के अब जेसी-664733एक्स),
01 नवम्बर 2007

हवलदार वीके सामल (सं. 2882731एल अब जेसी-664737एन),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार बी भट्टाचार्य (सं. 9418342एक्स अब जेसी-664915एल),
13 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार तारा चन्द (सं. 14586588एम अब जेसी-664735एड),
03 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार मालापुर बासन्ता गोडा (सं. 6381442एच अब
जेसी-664738डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार अमरेन्द्र कुमार सिंह (सं. 14592952डब्ल्यू अब
जेसी-664736एल), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार महेन्द्रा कुमार शुक्ला (सं. 4467192एफ अब
जेसी-664914एच), 13 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश कुमार एमके (सं. 14597982एक्स अब
जेसी-664811के), 01 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार बीएस रामन (सं. 6382438के अब जेसी-664734ए),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार अशोक कुमार शंखला (सं. 15359237ए अब जेसी-664731एम), 23 अक्टूबर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार के एम बाला सुब्रामनियन (सं. 2884807वाई अब जेसी-664812एम), 31 अक्टूबर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार पी रामानाथन (सं. 8031748ए अब जेसी-664608एन), 10 सितम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

तोपखाना रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

बीएचएम ग्यान सिंह (सं. 14393533एफ अब जेसी-271809एफ), 15 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार राजेश्वर सिंह (सं. 14480952पी अब जेसी-271810डब्ल्यू), 10 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार रोशन सिंह (सं. 14367956एक्स अब जेसी-271811वाई), 03 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार चैन्ना केसवालू महान (सं. 14402484एन अब जेसी-271812एफ), 21 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008 *

हवलदार श्री राम किशोर शर्मा (सं. 14367231एक्स अब जेसी-271813के), 18 मार्च 2008/01 फरवरी 2008 *

हवलदार आत्मा सिंह (सं. 14386244के अब जेसी-271814एम), 03 मार्च 2008/01 फरवरी 2008 *

हवलदार लाखवीर सिंह (सं. 15100141डब्ल्यू अब जेसी-271815पी), 09 अप्रैल 2008/01 फरवरी 2008 *

हवलदार डी इथी राजू (सं. 14394071एम अब जेसी-271816एक्स), 21 मई 2008/25 फरवरी 2008 *

आरएचएम पुरन प्रसाद थापा (सं. 14388737के अब जेसी-271817ए), 01 मार्च 2008

बीएचएम काम्थाला दिलीप दशरथ (सं. 14394268एच अब जेसी-271818एच), 01 मार्च 2008

हवलदार आर मुलानन्दम (सं. 15104503के अब जेसी-271819एल), 08 अप्रैल 2008/01 मार्च 2008 *

हवलदार रत्न सिंह (सं. 15106030पी अब जेसी-271820ए), 08 मई 2008/01 मार्च 2008 *

हवलदार अश्वतार सिंह (सं. 15100852डब्ल्यू अब जेसी-271821एच), 15 मार्च 2008/10 मार्च 2008 *

बीएचएम चन्द्रमा सिंह यादव (सं. 14485864एच अब जेसी-271822एल), 15 अप्रैल 2008/27 मार्च 2008 *

हवलदार गाडेकर अशोक रामकिशन (सं. 15115874एम अब जेसी-271823एन), 28 मई 2008/01 मई 2008 *

बीएचएम बाबू राम (सं. 15103884के अब जेसी-271824डब्ल्यू), 01 जून 2008

हवलदार शैलेन्द्र कुमार दुबे (सं. 14495304के अब जेसी-271825वाई), 06 फरवरी 2008/01 नवम्बर 2007 *

हवलदार श्री राम गुर्जर (सं. 14390254एल अब जेसी-271826एफ), 15 मई 2008/01 जनवरी 2008 *

आरएचएम सोहन सिंह (सं. 14369106एम अब जेसी-271827के), 12 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार मालाराम्पा (सं. 14498058पी अब जेसी-271828एम), 21 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008 *

बीएचएम रेशम सिंह (सं. 14485026एन अब जेसी-271829पी), 20 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार सज्जन कुमार (सं. 15104055एच अब जेसी-271830के), 22 फरवरी 2008/23 जनवरी 2008 *

हवलदार राम लाल शर्मा (सं. 14491012के अब जेसी-271831एम), 04 मई 2008/01 फरवरी 2008 *

आरएचएम जितेन नामा शुद्र (सं. 14400178ए अब जेसी-271832पी), 25 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008 *

हवलदार मनजीत सिंह (सं. 14486596डब्ल्यू अब जेसी-271833एक्स), 08 मार्च 2008/13 फरवरी 2008 *

हवलदार जितेन्द्र सिंह (सं. 14374800एच अब जेसी-271834ए), 19 अप्रैल 2008/01 मार्च 2008 *

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 14369920एक्स अब जेसी-271835एच), 07 मई 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार मनेजर सिंह (सं. 14379520वाई अब जेसी-271836एल), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार प्रमोद कुमार पाण्डेय (सं. 14498270एम अब जेसी-271837एन), 29 मई 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार घिनोद कुमार राय (सं. 14499343ए अब जेसी-271838डब्ल्यू), 01 मई 2008

हवलदार नाका वेन्कटेश्वर (सं. 14494138पी अब जेसी-271839वाई), 01 मई 2008

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 15101217एक्स अब जेसी-271840एन), 01 जून 2008

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

आरएचएम ओएस मुरली (सं. 15117160एक्स अव जेसी-271766एक्स), 10 जून 2008/01 जून 2008 *

आरएचएम एम राजगुरु (सं. 14406738एक्स अव जेसी-271767ए), 01 जून 2008

हवलदार बाबू राज के पी (सं. 14393552एम अव जेसी-271768एच), 16 फरवरी 2008/01 सितम्बर 2007 *

हवलदार कंदार सिंह (सं. 14372590पी अव जेसी-271769एल), 28 दिसम्बर 2007/12 दिसम्बर 2007 *

हवलदार सजीव जोशे एम जे (सं. 15133617एक्स अव जेसी-271770ए), 12 अप्रैल 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार शांति स्वरूप (सं. 14390811वाई अव जेसी-271771), 14 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार राम कुमार (सं. 14378671एल अव जेसी-271772एल), 23 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008 *

हवलदार राज कुमार तिवारी (सं. 14498990ए अव जेसी-271773एन), 29 फरवरी 2008/12 फरवरी 2008 *

हवलदार अलार सिंह (सं. 14374531एफ अव जेसी-271774डब्ल्यू), 19 मई 2008/25 फरवरी 2008 *

हवलदार पी रमेश रेड्डी (सं. 14374787के अव जेसी-271775वाई), 23 मार्च 2008/27 फरवरी 2008 *

बीएचएम तरसेम सिंह (सं. 15105406वाई अव जेसी-271776एक), 16 अप्रैल 2008/29 मार्च 2008 *

हवलदार धर्म पाल (सं. 14383490के अव जेसी-271777के), 19 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार मार्टिन वा के (सं. 14485278ए अव जेसी-271778एन), 28 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार काँशाक चन्द्र पाल (सं. 14372806एल अव जेसी-271779पी), 19 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार सुन्दर कुमार (सं. 15100628के अव जेसी-271780के), 05 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार योगा सिंह (सं. 14386309एम अव जेसी-271781एम), 01 अप्रैल 2008

बीएचएम लाला राम यादव (सं. 15108708डब्ल्यू अव जेसी-271782पी), 02 मई 2008/06 अप्रैल 2008 *

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 14485871वाई अव जेसी-271783एक्स), 08 मई 2008/01 मई 2008 *

हवलदार महेंद्र सिंह (सं. 15104774एफ अव जेसी-271784एफ), 09 जनवरी 2008/01 अगस्त 2007 *

बीएचएम रवीन्द्र सिंह चौहान (सं. 144977162डब्ल्यू अव जेसी-271794के), 14 जनवरी 2008/12 नवम्बर 2007 *

आरएचएम देवेन्द्र कुमार कादरे (सं. 14498403एक्स अव जेसी-271795एम), 02 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 *

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 14379506एम अव जेसी-271796पी), 16 जनवरी 2008/04 दिसम्बर 2007 *

हवलदार शिव मन्दन यादव (सं. 14372081डब्ल्यू अव जेसी-271797एक्स), 09 अप्रैल 2008/10 दिसम्बर 2007 *

हवलदार धर्मवीर सिंह (सं. 15105122पी अव जेसी-271798ए), 17 अप्रैल 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार जयदेव सिंह (सं. 14498600ए अव जेसी-271799एच), 24 अप्रैल 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार नन्दजी सिंह यादव (सं. 14367179ए अव जेसी-271800एम), 13 फरवरी 2008/09 जनवरी 2008 *

हवलदार माली शांताराम जयन्नाथ (सं. 14498972एल अव जेसी-271801पी), 24 अप्रैल 2008/01 फरवरी 2008 *

हवलदार सीमा राम सिंह (सं. 14488034एक्स अव जेसी-271802एक्स), 19 अप्रैल 2008/01 फरवरी 2008 *

हवलदार रंगा सीला रामानु (सं. 14388316एफ अव जेसी-271803ए), 03 मई 2008/01 फरवरी 2008 *

हवलदार नलावडे अशोक आबासाहेब (सं. 14493277एम अव जेसी-271804एच), 04 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008 *

हवलदार चानन राम (सं. 14498375डब्ल्यू अव जेसी-271805एल), 02 मई 2008/13 फरवरी 2008 *

हवलदार संसार चन्द (सं. 14486908एफ अव जेसी-271806एल), 25 मार्च 2008/01 मार्च 2008 *

हवलदार होशियार सिंह मेहता (सं. 14393242एफ अव जेसी-271807डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008

हवलदार फकिर सिंह (सं. 15103503एक्स अव जेसी-271808वाई), 01 जून 2008

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

पी रामा प्रार्थ
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्यालय

सं. 464, दिनांक 26 अगस्त 2008--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

हवलदार से नायक सूत्रेदार आभोरर के रैंक में

धुव किशोर सिंह (सं. 14554482एम अव जेसी-762224पी), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

वकिल सिंह कुशावह (सं. 14553809एम अव जेसी-762455एल), 01 मई 2008/01 मई 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार एवीएफ (एफ) के रैंक में

सुभाश चंद (सं. 14566115एम अब जेसी-762302एफ), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

देव नारायण प्रधान (सं. 14568573एफ अब जेसी-762452एक्स), 01 मई 2008/01 मई 2008 *

देश राज यादव (सं. 14568623एफ अब जेसी-762543एफ), 07 मई 2008/01 मई 2008 *

धुब सिंह पत्तनिया (सं. 14568574के अब जेसी-762453ए), 01 मई 2008/01 मई 2008 *

गुरचरन सिंह (सं. 14568521एल अब जेसी-762448पी), 01 मई 2008/01 मई 2008 *

मोहन सिंह रावत (सं. 14555837वाई अब जेसी-762167वाई), 20 मार्च 2008/03 जून 2007 *

पीथाम्बरन जी (सं. 14565858एच अब जेसी-762446के), 10 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

प्यार चंद सिंह राणा (सं. 14568555वाई अब जेसी-762451पी), 02 मई 2008/01 मई 2008 *

रमेश कुमार दंगवाल (सं. 14565850डब्ल्यू अब जेसी-761930के), 01 अप्रैल 2008/01 जनवरी 2008 *

समीर दास (सं. 14614476एल अब जेसी-762444वाई), 21 अप्रैल 2008/01 मार्च 2008 *

सुरेश चंद्र सेनी (सं. 14567331एम अब जेसी-762168एफ), 09 अप्रैल 2008/22 दिसम्बर 2007 *

तोता राम शर्मा (सं. 14568532वाई अब जेसी-762449एक्स), 01 मई 2008/01 मई 2008 *

उदय सिंह (सं. 14568550ए अब जेसी-762450एम), 01 मई 2008/01 मई 2008 *

विजय शिवराम कड्ड (सं. 14614475एच अब जेसी-762169के), 01 अप्रैल 2008/01 मार्च 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

बाल चंद यादव (सं. 14554313एल अब जेसी-762469एल), 01 मई 2008/01 मई 2008 *

दीपक बासुमतरी (सं. 14551340के अब जेसी-762079एच), 24 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

महेन्द्रपाल गौतम (सं. 14550179एन अब जेसी-762072वाई), 02 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008 *

नरेन्द्र कुमार (सं. 14552847एक्स अब जेसी-762164एल), 17 मार्च 2008/01 मार्च 2008 *

पारसनाथ साह (सं. 13890296के अब जेसी-762160पी), 26 मार्च 2008/01 मार्च 2008 *

प्रकाश सिंह (सं. 14552169एच अब जेसी-762166डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

सुन्दर लाल (सं. 14551988ए अब जेसी-762161एक्स), 24 मार्च 2008/01 मार्च 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार ई ई मेक के रैंक में

जोस पी एम (सं. 14557498एच अब जेसी-762221एफ), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

सीता राम (सं. 14557646एच अब जेसी-762222के), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

विजेन्द्र सिंह (सं. 14557711एक्स अब जेसी-762223एम), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार पेन्टर और डेकोरेटर के रैंक में

बीमेश कुमार मिश्रा (सं. 14549443के अब जेसी-762301वाई), 04 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार रीकवरी मैक के रैंक में

अरविन्द प्रसाद (सं. 14553864के अब जेसी-762459एफ), 01 मई 2008/01 मई 2008 *

विजया शंकर राम (सं. 14553363के अब जेसी-762458वाई), 01 मई 2008/01 मई 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

जैकब बर्गोस (सं. 14547628एम अब जेसी-762238पी), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

किशोर कान्ती दास (सं. 14547463वाई अब जेसी-762231एल), 28 मार्च 2008/01 फरवरी 2008 *

पति राम (सं. 14546128एच अब जेसी-761941डब्ल्यू), 18 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008 *

प्रभास चंद्र होरा (सं. 14614477एन अब जेसी-762228एल), 05 मार्च 2008/01 फरवरी 2008 *

राजिन्दर सिंह घोत्रा (सं. 14546127ए अब जेसी-762225एक्स), 13 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

सुभाश चंद्र यादव (सं. 14547032एम अब जेसी-762230एच), 10 मार्च 2008/01 फरवरी 2008 *

सुरेश चंद्र शर्मा (सं. 14547030एफ अब जेसी-762229एन), 20 मार्च 2008/01 फरवरी 2008 *

धोम्बरे बाबासाहेब आर (सं. 14603127एफ अब जेसी-762234वाई), 17 मार्च 2008/01 मार्च 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार टीसीएम (जीसीई) के रैंक में

मांगे राम (सं. 14563007एक्स अब जेसी-762239एक्स), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

शशि कान्त (सं. 14563053एम अब जेसी-762240एम), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

सुगथन बी टी (सं. 14563622पी अब जेसी-762241पी), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार टीसीएम (लाईन) के रैंक में

बलवान सिंह (सं. 14566118ए अब जेसी-762299एम), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक ए वेहीकल के रैंक में

नरेश कुमार (सं. 14620596ए अब जेसी-762187एम), 12 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

रमनदीप सिंह (सं. 14620593एम अब जेसी-762186के), 08 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

सुरेश चंद्र कुशवाहा (सं. 14620552ए अब जेसी-762185एन), 08 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक ए वेहीकल के रैंक में

अश्व कुमार द्विवेदी (सं. 14606937पी अब जेसी-762182एन), 11 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

अरविन्द प्रसाद सिंह (सं. 14586963एम अब जेसी-761971एन), 09 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 *

भवग्रही बिस्वाल् (सं. 14609349वाई अब जेसी-762190एम), 17 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

धरम प्रकाश चौहान (सं. 14612282के अब जेसी-762194एच), 01 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

जेना लाल प्रसाद (सं. 14610390पी अब जेसी-762039एफ), 09 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008 *

लक्ष्मी शंकर तिवारी (सं. 14605061पी अब जेसी-762001एक्स), 14 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008 *

मोहम्मद जर्मील अहमद (सं. 14607678के अब जेसी-762170वाई), 07 मार्च 2008/20 जनवरी 2008 *

नरेन्द्र सिंह (सं. 14607494एल अब जेसी-762189एक्स), 17 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

नित्यानन्द बन्धुपाध्याय (सं. 14585395ए अब जेसी-762175एक्स), 17 मार्च 2008/01 दिसम्बर 2007 *

ओम प्रकाश (सं. 14611445ए अब जेसी-762192एक्स), 18 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

राज सिंह (सं. 14595955पी अब जेसी-762177एच), 29 मार्च 2008/01 दिसम्बर 2007 *

रमेश चंद्र पाल (सं. 14611869डब्ल्यू अब जेसी-762193ए), 11 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

सन्जीव (सं. 14598342ए अब जेसी-762178एल), 01 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007 *

सतीश चंद्र शर्मा (सं. 14611222एच अब जेसी-762044एम), 24 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

शिव कुमार भगत (सं. 14583421एक्स अब जेसी-762174पी), 28 अप्रैल 2008/01 दिसम्बर 2007 *

सुधाश चंद्र (सं. 14597237एक्स अब जेसी-762179एन), 08 मार्च 2008/01 दिसम्बर 2007 *

विजय नारायण राम (सं. 14606213एक्स अब जेसी-762181एल), 27 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक कम्प्यूटर के रैंक में

जादव भगवत विस्वनाथ (सं. 14618246पी अब जेसी-762200एल), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

आर बाबु सायी (सं. 14617911ए अब जेसी-762198वाई), 10 मार्च 2008/01 फरवरी 2008 *

एस टी राजन (सं. 14618016एफ अब जेसी-762199एफ), 01 मार्च 2008/01 मार्च 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक इलेक्ट के रैंक में

अर्जुन प्रकाश रिछरिया (सं. 14607752ए अब जेसी-762129एच), 12 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 *

हेमन्त कुमार सार्व (सं. 14600585एम अब जेसी-762128ए), 25 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 *

नित्या नन्द राय (सं. 14604405डब्ल्यू अब जेसी-762125एम), 21 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक जीसीई के रैंक में

के दुर्गा दास (सं. 14619348एक्स अब जेसी-762208एक्स), 14 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

परदीप टी (सं. 14618653एक्स अब जेसी-762207पी), 10 मार्च 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक गन के रैंक में

अयोध कुमार बनर्जी (सं. 14618317एल अब जेसी-762211एक्स), 15 मार्च 2008/01 दिसम्बर 2007 *

धर्मेन्द्र कुमार पांडे (सं. 14618118एक्स अब जेसी-762210पी), 14 मार्च 2008/01 दिसम्बर 2007 *

नटवर सिंह बागवत (सं. 14618631वाई अब जेसी-761910डब्ल्यू), 20 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 *

योगेन्द्र सिंह (सं. 14615904एल अब जेसी-762209ए), 10 मार्च 2008/01 दिसम्बर 2007 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक आरओके रैंक में

अमित कुमार (सं. 14617933वाई अब जेसी-761877के), 01 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 *

भैरव लाल (सं. 14616088एम अब जेसी-762149डब्ल्यू), 03 मार्च 2008/10 फरवरी 2008 *

प्रदीप कुमार (सं. 14615060ए अब जेसी-762147एल), 14 मार्च 2008/10 फरवरी 2008 *

पूर्ण कान्ता बुरगोहाइन (सं. 14618341एफ अब जेसी-762155के), 25 फरवरी 2008/10 फरवरी 2008 *

रवीन्द्र सिंह (सं. 14603136एच अब जेसी-762144एक्स), 01 मार्च 2008/10 फरवरी 2008 *

पूर्ण कान्ता बुरगोहाइन (सं. 14618341एफ अब जेसी-762155के), 25 फरवरी 2008/10 फरवरी 2008 *

रवीन्द्र सिंह (सं. 14603136एच अब जेसी-762144एक्स), 01 मार्च 2008/10 फरवरी 2008 *

सरोज कुमार जेना (सं. 14615511पी अब जेसी-762148एन), 28 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008 *

सोमेश नाथ डे (सं. 14617355पी अब जेसी-762153वाई), 01 अप्रैल 2008/10 फरवरी 2008 *

यशवीर सिंह (सं. 14579286एक्स अब जेसी-761864एम), 17 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 *

हवलदार से नायब सूबेदार बीएम (एफवी) के रैंक में

ए अरुल दोस (सं. 14559153ए अब जेसी-762212ए), 28 मार्च 2008/01 मार्च 2008 *

गंगा विष्णु (सं. 14562312एक्स अब जेसी-762218एफ), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

क्रिशन कुमार (सं. 14562307एम अब जेसी-762216डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

प्रमोद सिंह बिस्ट (सं. 14560277एफ अब जेसी-762214एल), 07 मार्च 2008/01 मार्च 2008 *

प्रकाश चंद (सं. 14562293एक्स अब जेसी-762217वाई), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

सुभाष चंद (सं. 14562257एम अब जेसी-762215एन), 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

राजवीर सिंह (सं. 14553069के अब जेसी-762285एम), 07 अप्रैल 2008/01 फरवरी 2008 *

*(पिछली तारीख से बरीयता दी जाती है।)

एन के कश्मीरा
अपर सचिव

दल सेना विभाग

सं. 465, दिनांक 27 अगस्त 2008--राष्ट्रपति महोदय खुश होकर निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फैंट्री

गार्ड्स ब्रिगेड

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार चांद राम (सं. 13688416पी अब जेसी-404238एल), 04 फरवरी 2008

हवलदार धरम पाल सिंह (सं. 13688422एच अब जेसी-404240एच), 01 मार्च 2008

हवलदार चवन रघुनाथ बाबू राव (सं. 13688798के अब जेसी-404241एल), 01 मार्च 2008

हवलदार सम्यद मोहिबुल हसन (सं. 13691548एन अब जेसी-404242एन), 09 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार शशि रंजन त्रिवेदी (सं. 13689147ए अब जेसी-404243डब्ल्यू), 17 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जयंती प्रसाद पांडेय (सं. 13689195ए अब जेसी-404244वाई), 24 अप्रैल 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार रावत सिंह (सं. 13688192ए अब जेसी-404246के), 01 अप्रैल 2008

हवलदार ओम नारायण सिंह (सं. 13688803के अब जेसी-404249एक्स), 01 अप्रैल 2008

हवलदार बी सामिनाथन (सं. 13691219एक्स अब जेसी-404250एम), 17 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार गोविंद सिंह (सं. 13687906डब्ल्यू अब जेसी-404251पी), 27 अप्रैल 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार लाड कृगन शाम राव (सं. 13689220एन अब जेसी-404255एल), 01 अप्रैल 2008

हवलदार बीरेश कुमार शर्मा (सं. 13687476एक्स अब जेसी-404256एन), 09 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार महेश्वर (सं. 13691821वाई अथ जेसी-404358वाई),
01 मई 2008

हवलदार हरदेव सिंह (सं. 13689566एक्स अथ जेसी-404260डब्ल्यू),
10 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार नरेंद्र सिंह (सं. 13688086एफ अथ जेसी-404261वाई),
05 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार इंद्र सिंह रौतिला (सं. 13689395डब्ल्यू अथ जेसी-404262एफ),
12 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सुधीर सिंह (सं. 13689225एम अथ जेसी-404263के),
01 मई 2008

हवलदार कप्तान सिंह (सं. 13687561ए अथ जेसी-404264एम),
20 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार रोहिताश्व कुमार (सं. 13690523पी अथ जेसी-404265पी),
01 मई 2008

हवलदार चटोत राधाराज सोमा (सं. 13689235डब्ल्यू अथ जेसी-404266एक्स), 01 जून 2008

जे राम चौधरी
अवर सचिव

(भला सेना शाखा)

सं. 466, दिनांक 27 अगस्त 2008--राष्ट्रपति सचय निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :

निचमित सेना

इन्फैन्ट्री

8 वीं आर

नायब सूबेदार/लिपिक के रैंक में

हवलदार/लिपिक देव प्रकाश रोय (सं. 5751154डब्ल्यू अथ जेसी-623832एल) 01 मार्च 2008

हवलदार/लिपिक रामेश्वर प्रसाद (सं. 5751156एल अथ जेसी-623833एन), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/लिपिक ठाकुर मिह विष्ट (सं. 5751162पी अथ जेसी-623834डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/लिपिक त्रेम सिंह विष्ट (सं. 5751163एक्स अथ जेसी-623835वाई), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार/जीडी के रैंक में

हवलदार लक्ष्मण पुन (सं. 5751880एल अथ जेसी-623827ए),
01 फरवरी 2008

हवलदार रेशम बहादुर गहंग (सं. 5751970एम अथ जेसी-623828एच), 02 अप्रैल 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार उदया बीर सिंह (सं. 5751502एम अथ जेसी-623829एल),
21 मार्च 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार महेंद्रा थापा (सं. 5756133के अथ जेसी-623830ए),
14 फरवरी 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार बर्जिंद्र बहादुर थापा (सं. 5751366एफ अथ जेसी-623831एच),
01 मार्च 2008

हवलदार तारा बहादुर रणा (सं. 5751755एफ अथ जेसी-623822एफ),
13 मार्च 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार तिलक बहादुर पुन (सं. 5751460एल अथ जेसी-623823के)
24 फरवरी 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार तिलक बहादुर थापा (सं. 5751771वाई अथ जेसी-623824एम), 31 मार्च 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार लिल बहादुर थापा (सं. 5751832एल अथ जेसी-623825पी),
31 मार्च 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार थापा (सं. 5752372एफ अथ जेसी-623826एक्स), 01 मार्च 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

डोगरा रेजिमेन्ट
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शेर सिंह (सं. 3986581एच अब जेसी-520769एफ),
22 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार बल्लिंदर सिंह (सं. 3987043एफ अब जेसी-520770डब्ल्यू),
03 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार धर्म चन्द (सं. 3983831एन अब जेसी-520771आई),
01 मार्च 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 26 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार बल्लिंदर सिंह (सं. 3987049एच अब जेसी-520772एफ),
03 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बोध राज (सं. 3987910ए अब जेसी-520773के), 24 अप्रैल
2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार मनोहर लाल (सं. 3987316आई अब जेसी-520774एम),
22 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार धर्म चन्द (सं. 3984730एम अब जेसी-520775पी),
08 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 14 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार भीम सिंह शर्मा (सं. 3986618आई अब जेसी-520776एक्स),
17 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार मदन लाल (सं. 3987176एक्स अब जेसी-520777ए),
03 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार देस राज (सं. 3986750आई अब जेसी-520778एच),
26 अप्रैल 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार मनोहर लाल (सं. 3986640के अब जेसी-520779एल),
02 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 24 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार ईश्वर दास (सं. 3984299आई अब जेसी-520780ए),
01 मार्च 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार राजीव पटेल (सं. 3987781एल अब जेसी-520781एच),
29 अप्रैल 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बसंत कुमार (सं. 3987380डब्ल्यू अब जेसी-520782एल),
21 अप्रैल 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार राकेश कुमार (सं. 3986647एन अब जेसी-520783एन),
20 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेन्द्र कुमार ठाकुर (सं. 3988684ए अब
जेसी-520784डब्ल्यू), 09 मार्च 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 3984714पी अब जेसी-520785आई),
07 मार्च 2008

हवलदार अटल सिंह (सं. 3988983आई अब जेसी-520786एफ),
03 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सुरम सिंह (सं. 3987191एम अब जेसी-520787के),
05 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 26 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जनक राज (सं. 3984820एन अब जेसी-520788एम),
01 अप्रैल 2008

हवलदार अमर जीत (सं. 3985054पी अब जेसी-520789पी),
01 अप्रैल 2008

हवलदार दयाल सिंह (सं. 3985068पी अब जेसी-520790के),
17 अप्रैल 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार राम पाल (सं. 3985590एक्स अब जेसी-520791एम्),
01 अप्रैल 2008

हवलदार रमेश चन्द (सं. 3985887वाई अब जेसी-520792पी),
01 अप्रैल 2008

हवलदार अगदेव राज सिंह (सं. 3986748एफ अब जेसी-520793एक्स), 15 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सुरजोत सिंह (सं. 3986307एल अब जेसी-520794ए),
15 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार डट्टा सिंह (सं. 3985629वाई अब जेसी-520795एम्),
01 अप्रैल 2008

हवलदार कोसर सिंह (सं. 3988791एफ अब जेसी-520796एल),
02 अप्रैल 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार कशमीर सिंह (सं. 3989127एन अब जेसी-520797एम्),
02 अप्रैल 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार कुलवीर सिंह (सं. 3985622पी अब जेसी-520798डब्ल्यू),
10 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार अमीन चन्द (सं. 3986658ए अब जेसी-520799वाई),
31 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 3986670एफ अब जेसी-520800एच),
31 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 3986878के अब जेसी-520801एल),
31 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार केवल कृष्ण (सं. 3986886एच अब जेसी-520802एन),
31 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार कृष्ण चन्द वैद्य (सं. 3986891एन अब जेसी-520803डब्ल्यू),
31 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार दिली राम (सं. 3986896एम् अब जेसी-520804वाई),
31 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार कस्तूरी लाल (सं. 3985604एम् अब जेसी-520805एम्),
14 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

मरठा लाईट इन्फैन्ट्री
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पठाण इनायतखान महबूबखान (सं. 2787724के अब जेसी-459853एच), 16 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

हवलदार मगदूम तानाजी रामचंद्र (सं. 2783118डब्ल्यू अब जेसी-459854एल), 29 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

हवलदार खिस्ताराज ओरोकत्तामो (सं. 2783418एक्स अब जेसी-459855एन), 27 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

हवलदार मेहरे रामकृष्ण गोपाल (सं. 2783648एल अब जेसी-459856डब्ल्यू), 19 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

हवलदार ठिकपुरल्ले चंद्रकांत बाबू (सं. 2784836वाई अब जेसी-459857वाई), 05 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

हवलदार संदल लक्ष्मण फकिरचंद (सं. 2783441के अब जेसी-459862के), 01 जून 2008

हवलदार थल्लाम्पा अवदार (सं. 2785804एच अब जेसी-459863एम), 01 जून 2008

हवलदार रसाल सुभाष सदाशिव (सं. 2786190एक्स अब जेसी-459864पी), 01 जून 2008

हवलदार विलास आनंदा जाधव (सं. 2787074एफ अब जेसी-459865एक्स), 01 जून 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) प्रशान्त कुमार रथ (सं. 2783146एच अब जेसी-459858एफ), 01 जून 2008

हवलदार (लिपिक) दत्तात्रय पाटील (सं. 2778452एन अब जेसी-459859के), 01 जून 2008

हवलदार (लिपिक) उत्तम कुमार बिस्वास (सं. 2788764एक्स अब जेसी-459860वाई), 01 जून 2008

हवलदार (लिपिक) चंद्र शोखर रमण (सं. 2788765ए अब जेसी-459861एफ), 01 जून 2008

जम्मू और कश्मीर राईफलस

नायब सूबेदार जी डी के रैंक में

हवलदार सोम दत्त (सं. 13751422ए अब जेसी-580722ए), 06 जून 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार तिरथ सिंह (सं. 13750604एफ अब जेसी-580723एच), 15 मई 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार मनजित सिंह कौशल (सं. 13753316ए अब जेसी-580724एल), 14 मई 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार शबिर अहमद (सं. 13753327एम अब जेसी-580725एन), 02 जून 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार हेम राज एन (सं. 13750630एच अब जेसी-580726डब्ल्यू), 05 जून 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार परशोतम कुमार (सं. 13750085के अब जेसी-580727वाई), 13 जून 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार टन्का सना (सं. 13750698के अब जेसी-580728एफ), 01 जून 2008

हवलदार लेख राम (सं. 13751170के अब जेसी-580729के), 01 जून 2008

हवलदार मेजर सिंह (सं. 13752890एम अब जेसी-580730वाई), 02 जून 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार दलवीर सिंह (सं. 13750928एम अब जेसी-580731एफ), 01 जून 2008

हवलदार सरबन सिंह एस एम (सं. 13752268वाई अब जेसी-580732के), 01 जून 2008

जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हुकम सिंह (सं. 3179946एच अब जेसी-490289ए), 01 जून 2008

हवलदार हरिवंश सिंह (सं. 3180755ए अब जेसी-490290पी), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) नरेश कुमार (सं. 3178886एम अब जेसी-490291एक्स), 01 जून 2008

हवलदार (लिपिक) जोहन वी एस (सं. 3178901डब्ल्यू अब जेसी-490292ए), 01 जुलाई 2008

हवलदार (लिपिक) गोपाला कृष्ण पिलई पी जे (सं. 3178963डब्ल्यू अब जेसी-490293एच), 01 जुलाई 2008

नियमित सेना इन्फैन्ट्री-जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिये

हवलदार नसरून अहमद मिर (सं. 9087176के अब जेसी-593643के), 12 अप्रैल 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में 12 अप्रैल 2008 से बरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार तिलक राज (सं. 9087558डब्ल्यू अब जेसी-593644एम), 18 मई 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अप्रैल 2008 से बरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार राज कुमार (सं. 9086034एफ अथ जेसी-593645पी),
01 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में 07 अप्रैल 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुबाश चंद्र (सं. 9086822एम अथ जेसी-593646एफ),
01 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में 07 अप्रैल 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

महार रॉजमैट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ललित चन्द (सं. 4559653ए अथ जेसी-569988एम),
06 अक्टूबर 2007**

*** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 24 मई 2006)

हवलदार पान सिंह (सं. 4557540वाई अथ जेसी-569989पी),
21 अप्रैल 2007****

**** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2007)

हवलदार गोविन्द लक्ष्मण सिंदे (सं. 4557087एन अथ
जेसी-569990के), 21 अक्टूबर 2007*

हवलदार सिंदे अभय श्रवण (सं. 4557890एल अथ
जेसी-569991एम), 21 अक्टूबर 2007*

हवलदार मोहिते सचिन्दर हनुमंत (सं. 4557969एन अथ
जेसी-569992पी), 21 अक्टूबर 2007*

† (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 21 अगस्त 2007)

हवलदार बालक सिंह (सं. 4560223एच अथ जेसी-569993एफ),
24 सितम्बर 2007**

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2007)

हवलदार (लिपिक) (जांड़ी) विश्वकर्मा चक्रबोती (सं. 4562544वाई
अथ जेसी-569994ए), 08 सितम्बर 2007\$

\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2007)

हवलदार सोमेश्वर प्रसाद (सं. 7430547एम अथ जेसी-569995एच),
01 सितम्बर 2007

हवलदार मुरली मनोहर दास (सं. 4560414एच अथ
जेसी-569996एल), 01 सितम्बर 2007

हवलदार सत्यवीर सिंह (सं. 4560242एन अथ जेसी-569997एन),
28 सितम्बर 2007\$\$

\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2007)

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 4559858एच अथ जेसी-569998इक्यू),
01 सितम्बर 2007\$

हवलदार भोपाले विजय मारुती (सं. 4560836एच अथ
जेसी-569999वाई), 08 सितम्बर 2007\$55

\$55 (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2007)

हवलदार सुरेश चन्द्र (सं. 8031240इक्यू अथ जेसी-570000ए),
01 अक्टूबर 2007

हवलदार रामायण प्रसाद श्रीवास (सं. 8032668पी अथ
जेसी-570001एच), 26 अक्टूबर 2007&

हवलदार रतन कुमार जनाँजिया (सं. 4561292एल अथ
जेसी-570002एल), 02 नवम्बर 2007&

& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2007)

हवलदार (लिपिक) (जांड़ी) शिव कुमार (सं. 4562545एफ अथ
जेसी-570003एन), 01 नवम्बर 2007

हवलदार (लिपिक) (जांड़ी) फैजान लक्ष्मण बाबूबाव (सं. 4556323इक्यू
अथ जेसी-570004इक्यू), 01 नवम्बर 2007

हवलदार (लिपिक) (जांड़ी) चन्द्र शेखर यादव (सं. 4557229वाई
अथ जेसी-570005वाई), 01 नवम्बर 2007

हवलदार अफसर सिंह (सं. 4556697एम अथ जेसी-570006एफ)
05 नवम्बर 2007&&

हवलदार कैलाश चन्द्र यादव (सं. 4559864एच अथ
जेसी-570007के), 05 नवम्बर 2007&&

&& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2007)

हवलदार राजेन्द्र सिंह यादव (सं. 4558977वाई अथ जेसी-570008एन),
01 नवम्बर 2007

हवलदार सेन सिंह (सं. 4559080एफ अथ जेसी-570009पी),
01 नवम्बर 2007

हवलदार योगेन्द्र नाथ यादव (सं. 4559969एम अथ जेसी-570010के),
05 नवम्बर 2007+

+(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2007)

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद सिहाग (सं. 4561480एम अथ
जेसी-570011एम), 02 नवम्बर 2007++

++ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2007)

हवलदार (लिपिक) रान जी (सं. 4553589एक्स अथ जेसी-569998ए),
01 अगस्त 2006

हवलदार (लिपिक) सरस सिंह बिष्ट (सं. 4554047ए अथ
जेसी-569999एच), 01 अगस्त 2006

हवलदार (लिपिक) लाल मणि (सं. 4556349एल अब जेसी-569818एच), 03 अगस्त 2006@@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2006)

हवलदार (लिपिक) श्रीरसागर रघुनाथ निबलति (सं. 4556483डब्ल्यू अब जेसी-569819एल), 01 अगस्त 2006

हवलदार (लिपिक) मुरलीधारा कुरुप सी एन (सं. 4556510पी अब जेसी-569820ए), 08 अक्टूबर 2006@@

@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2006)

हवलदार (लिपिक) मटेल गिरीश कुमार मुलाजी भाई (सं. 4556819एल अब जेसी-569821एच), 07 सितम्बर 2006#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2006)

हवलदार (लिपिक) गोपाल सिंह चौहान (सं. 4562249डब्ल्यू अब जेसी-569822एल), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार (लिपिक) सत्यवीर सिंह (सं. 4562250एल अब जेसी-569823एन), 03 अक्टूबर 2006##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2006)

हवलदार (लिपिक) विजय कुमार (सं. 4557040एफ अब जेसी-569824डब्ल्यू), 21 अक्टूबर 2006\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2006)

हवलदार (लिपिक) नन्द लाल तिषारी (सं. 4557210ए अब जेसी-569825वाई), 03 अक्टूबर 2006\$\$

\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2006)

हवलदार राजीव कुमार राय (सं. 4560251पी अब जेसी-569979एल), 22 फरवरी 2007@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2007)

हवलदार सुरेश सिंह (सं. 4560364एक्स अब जेसी-569980एल), 01 अक्टूबर 2007@@

@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2007)

हवलदार इन्दर कुमार अन्वोट (सं. 4561289एल अब जेसी-569981एच), 10 अप्रैल 2007#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2007)

हवलदार चतर सिंह (सं. 4557439वाई अब जेसी-569982एल), 05 सितम्बर 2007##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2007)

हवलदार उमेश प्रसाद (सं. 4554593एम अब जेसी-569983एन), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार महिपाल सिंह (सं. 4558993डब्ल्यू अब जेसी-569984डब्ल्यू), 05 अक्टूबर 2007\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2007)

हवलदार योगेन्द्र यादव (सं. 4559032एफ अब जेसी-569985वाई), 05 अक्टूबर 2007\$\$

\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2007)

हवलदार हरीश नारायण कश्यप (सं. 4560244वाई अब जेसी-569986एफ), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार उत्तम सिंह भदोरिया (सं. 4561255एक्स अब जेसी-569987के), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार नित्या नन्द (सं. 4557305ए अब जेसी-570012पी), 26 अक्टूबर 2007@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 30 जुलाई 2007)

हवलदार विजय सिंह (सं. 4557312डब्ल्यू अब जेसी-570013एक्स), 16 अक्टूबर 2007@@

हवलदार रामलाल चरभकार (सं. 4557118एफ अब जेसी-570014ए), 16 अक्टूबर 2007@@

@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 13 अगस्त 2007)

हवलदार रघुनाथ प्रसाद (सं. 4557477पी अब जेसी-570015एच), 27 अक्टूबर 2007#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2007)

हवलदार राजेश गिरि (सं. 8032249एक्स अब जेसी-570016एल), 01 सितम्बर 2007

हवलदार पृथ्वी पाल सिंह (सं. 4561250वाई अब जेसी-570017एन), 01 नवम्बर 2007##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2007)

हवलदार इन्द्र सिंह (सं. 4559091एन अब जेसी-570018डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2007

हवलदार दाभाडे राजाराम आबाजी (सं. 4558628पी अब जेसी-570019वाई), 05 नवम्बर 2007###

###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2007)

हवलदार (लिपिक) (जोड़ी) सुरेन्द्र पाल (सं. 4557155पी अब जेसी-570020एन), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार (लिपिक) (जोड़ी) सुरेश सिंह (सं. 4557171एम अब जेसी-570021डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार (लिपिक) (जोड़ी) मोहन लाल (सं. 4557493एम अब जेसी-570022वाई), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार उत्तम भाउ काम्बले (सं. 4559451आई अब जेसी-570064एल), 29 नवम्बर 2007

(ॐ)(विना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2007)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 4554323एक्स अब जेसी-570065एन), 01 नवम्बर 2007

हवलदार/लिपिक (जीडी) दया राम (सं. 4184877एक्स अब जेसी-570066डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008

हवलदार विरेन्द्र नाथ दास (सं. 13616871एफ अब जेसी-570067आई), 01 फरवरी 2008

हवलदार श्री क्रिशन (सं. 4560104एम अब जेसी-570068एफ), 01 फरवरी 2008

(ॐ)(विना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2008)

हवलदार अशोक कुमार चौहान (सं. 4560227आई अब जेसी-570069के), 01 फरवरी 2008

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 4559259पी अब जेसी-570070आई), 01 फरवरी 2008

हवलदार/लिपिक (जीडी) सत्य वीर (सं. 4557538एफ अब जेसी-570071एफ), 01 मार्च 2008

हवलदार/लिपिक (जीडी) शिव नारायण झागर (सं. 4557674एक्स अब जेसी-570072के), 01 मार्च 2008

हवलदार/लिपिक (जीडी) महेश चन्द्र जोशी (सं. 4557678एन अब जेसी-570073एम), 01 मार्च 2008

एस असरफ
अन्य सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 467, दिनांक 27 अगस्त 2008--राष्ट्रपति सहाय निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को उनके नाम के सम्मने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200/- पर :--

नाम, स्थापना और दिनांक

श्री अमित कुमार सैनी, सीफोज, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री प्रणय मटकार, सीफोज, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री प्रशांत रामदास लोनकर, सीफोज, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री मुकुल आनंद मिश्र, सीफोज, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

मिस मीता मुजाल्दा, सीफोज, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री ओवस रसूल, सीफोज, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री विशाल द्विवेदी, सीफोज, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री गुलशन सिंगला, सीफोज, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री अमित पासी, सीफोज, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री त्रिलोचन सिंह राखेर, सीफोज, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री अमित त्यागी, सीफोज, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री पी एस नागराज, डेप्ट, बंगलौर, 01 जुलाई 2008

मिस अर्चना राय, डेप्ट, बंगलौर, 01 जुलाई 2008

श्री आशिक अशरफ वी वी, डेप्ट, बंगलौर, 01 जुलाई 2008

श्री यशवंत सिंह, डेप्ट, बंगलौर, 01 जुलाई 2008

श्रीमति दीपा प्रभु, डेप्ट, बंगलौर, 01 जुलाई 2008

श्री त्रुषि कुमार वर्मा, डेप्ट, बंगलौर, 01 जुलाई 2008

श्रीमति अनुया वेंकटेश, लासटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री सौरभ इम्मदार, लासटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री राजीव कुमार, लासटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री अजय राठी, लासटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री श्री योगेश कुमार, लासटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री चंद्र प्रकाश, लासटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्रीमति माधुरी यादव, लासटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्रीमति किरणमाला लैशराम, लासटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री पवन कुमार कौशिक, लासटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री अशोक कुमार कृकन, लासटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री मुकेश कुमार जिंदल, लासटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्रीमति साक्षी गुप्ता, लासटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्रीमति रजनी मल्होत्रा, लासटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री दीपक कुमार, लासटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

श्री नागराज एम, एल आर डी ई, बंगलौर, 01 जुलाई 2008

श्री आनंद साई वर्मा, एल आर डी ई, बंगलौर, 01 जुलाई 2008

श्री विवेक कुमार, एल आर डी ई, बंगलौर, 01 जुलाई 2008

श्री योगेश प्रभाकर धरोदे, एल आर डी ई, बंगलौर, 01 जुलाई 2008
 श्री हेमप्रसाद घंटा, एल आर डी ई, बंगलौर, 01 जुलाई 2008
 श्री रमेश माजी, एल आर डी ई, बंगलौर, 01 जुलाई 2008
 श्री सचिन राजेश वर्मा, एल आर डी ई, बंगलौर, 01 जुलाई 2008
 श्री अम्बला संजान एन्टोनी आर, एल आर डी ई, बंगलौर, 01 जुलाई 2008

श्री विष्णु ओ सी, एल आर डी ई, बंगलौर, 01 जुलाई 2008
 श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, एल आर डी ई, बंगलौर, 01 जुलाई 2008
 श्री रवि खेमला, एल आर डी ई, बंगलौर, 01 जुलाई 2008
 श्री वीर सिंह गंगवार, एल आर डी ई, बंगलौर, 01 जुलाई 2008
 श्री नीरज कुमार, एम टी आर डी सी, बंगलौर, 01 जुलाई 2008
 श्री नवीन कुमार शर्मा, एम टी आर डी सी, बंगलौर, 01 जुलाई 2008
 मिस पूजा श्रीवास्तव, इनमास, दिल्ली, 01 जुलाई 2008
 मिस एम मेमिता देवी, इनमास, दिल्ली, 01 जुलाई 2008
 श्रीमति शिल्पा मोदी, इनमास, दिल्ली, 01 जुलाई 2008
 डॉ अनंत नारायण भट्ट, इनमास, दिल्ली, 01 जुलाई 2008
 श्री विभू शर्मा, स्पीक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008
 श्री विजय कुमार मित्तल, स्पीक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008
 श्री तरुण कुमार साहू, स्पीक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008
 श्री प्रथा ज्योति गायन, स्पीक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008
 श्री मनजिंदर सिंह, स्पीक, दिल्ली, 01 जुलाई 2008

टी अब्दुर्रज्जाक
 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सेना शाखा

सं. 468, दिनांक 28 अगस्त 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा उनके अधिकारियों के नियमित आरक्षी कोटे (क्लास X) अधीन एस ए आई 10/S/63 यथा संशोधित में स्थानांतरित करते हैं :-

नियमित सेना
 स्थायी कमीशन

रैंक, नाम, आईसी सं., आर्म्स/सर्विस और सेवानिवृत्ति की तारीख

ले कर्नल राजेश कुमार (आईसी-43324), आर्टी, 27 जनवरी 2007(अपराह्न)

ले कर्नल अनिल तिवारी (आईसी-41626), ईन्ट, 25 सितम्बर 2006(अपराह्न)

ले कर्नल कनाडे किरण राम राव (आईसी-42254), आईसी, 12 नवम्बर 2006(अपराह्न)

ले कर्नल रवि कुमार (आईसी-43451), एओसी, 21 सितम्बर 2006(अपराह्न)

ले कर्नल जी के पूजाट (आईसी-43131), एओसी, 05 दिसम्बर 2005(अपराह्न)

ले कर्नल गुरप्रीत सिंह (आईसी-43552), एओसी, 13 मई 2006(अपराह्न)

ले कर्नल अनिल कुमार मेहता (आईसी-38793), ईफैन्ट्री, 31 अगस्त 2005(अपराह्न)

ले कर्नल नवीन मेहरोत्रा (आईसी-49575), ईफैन्ट्री, 06 जुलाई 2005(अपराह्न)

ले कर्नल ललित चंद सूद (आईसी-45322), एसी, 19 जनवरी 2006(अपराह्न)

मेजर भातेंदु नोरा (आईसी-54940), एसी, 21 फरवरी 2006(अपराह्न)

ले कर्नल राकेश मलिक (आईसी-45240), इंजीनियर्स, 30 अप्रैल 2006(अपराह्न)

ले कर्नल चतुर्वेदी देवेश (आईसी-42849), इंजीनियर्स, 07 नवम्बर 2006(अपराह्न)

ले कर्नल हरि कांत (आईसी-41660), इंजीनियर्स, 05 सितम्बर 2006(अपराह्न)

ले कर्नल तपन कुमार भट्टयाचार्य (आईसी-42226), इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2006(अपराह्न)

ले कर्नल रमेश कुमार एम (आईसी-45571), इंजीनियर्स, 19 सितम्बर 2006(अपराह्न)

ले कर्नल (सलेक्शन) हरिश कुमार (आईसी-38267), इंजीनियर्स, 05 सितम्बर 2006(अपराह्न)

ले कर्नल अनिल दुबे (आईसी-41171), इंजीनियर्स, 26 अक्टूबर 2006(अपराह्न)

ले कर्नल आशिष घोष (आईसी-40843), इंजीनियर्स, 11 नवम्बर 2006(अपराह्न)

ले कर्नल डी एस डिल्लन (आईसी-42736), इंजीनियर्स, 03 जुलाई 2006(अपराह्न)

ले कर्नल अशोक मलिक (आईसी-43119), इंजीनियर्स, 16 मई 2006(अपराह्न)

ले कर्नल राकेश रस्तोगी (आईसी-43323), सिग्नल्स, 23 अक्टूबर 2006(अपराह्न)

ले कर्नल विवेक भट्टाचार्य (आईसी-429011), सिग्नल्स, 11 जुलाई
2006(अपराह्न)

ले कर्नल प्रदीप मेहता (आईसी-43640), सिग्नल्स, 11 जुलाई
2006(अपराह्न)

ले कर्नल एन रमेश (आईसी-45117), सिग्नल्स, 30 सितम्बर
2006(अपराह्न)

ले कर्नल पी आर मेनन, वी एस एम (आईसी-43179), सिग्नल्स,
30 सितम्बर 2006(अपराह्न)

ले कर्नल पवन एस यादव (आईसी-49872), सिग्नल्स, 10 नवम्बर
2006(अपराह्न)

ले कर्नल अरविंद कुमार (आईसी 43467), सिग्नल्स, 10 नवम्बर
2006(अपराह्न)

एस के चक्रवर्ती
संयुक्त निर्देशक
एम एम पी आर

सेना राखा

सं. 469, दिनांक 28 अगस्त 2008--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ए
एम सी अधिकारियों की उनके सम्पन्न देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :-

निर्वाचित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले कर्नल के पद पर

शुद्धि-पत्र

एमआर-06372एफ ले कर्नल रिटोराज नारायण वर्मा का पदोन्नति की
तिथि जो कि दिनांक 10 मई 2008 के राजपत्र में प्रकाशित क्रम सं. (के)
पर है इसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

के लिए : 07 जून 2005

पढ़ें : 16 दिसम्बर 2004

जी रविन्द्रनाथ

ज़िम्मेदार

उप डीजीएफएमएस (कार्यिक)

MINISTRY OF DEFENCE

(ARMY BRANCH)

New Delhi, the 13th September 2008

No. 454, dated 20th August, 2008.—The President is pleased to make the following appointment for a period of 05 years under 15/79 as amended and GOI MOD letter Nos. 10(3)(1)/05/D(Med) dated 28 Oct 05 & 29 Oct 07 :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (On Probation)

Ranjeet Panwar (DS-12302Y), 31 Mar 2008

Vishvanathe Udayshankar Suryakant (DS-12303F), 01 Apr 2008

Mahajan Chaitanya Arvind (DS-12304K), 01 Apr 2008

(Ms) Ankurita Sharma (DS-12305M), 01 Apr 2008

(Ms) Gadicherla Shanti Smutha (DS-12306P), 10 Apr 2008

The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (On Probation)

Shyam Sakhuja (DS-12251W), AD Corps, 16 Oct 2007

[With seniority for pay and promotion from 16-10-2004 (includes 36 months ante date for undergone post-graduation course of Master of Dental Surgery (MDS) in Periodontics for a duration of three years from Goa Dental College & Hospital, Bambolim, Goa, which will not count for gratuity].

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 12-04-2008 in so far as it pertain to the officer is hereby cancelled.

(Ms) Shashikala D Honnahalli, (DS-12181H), AD Corps, 04 Mar 2006

[With seniority for pay and promotion from 04-09-2005 (includes 06 months ante date for paid job of Lecturer in the Institute of Dental Studies & Technologies, Kadrabad, Modinagar (UP), which will not count for gratuity].

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 05-04-2008 in so far as it pertain to the officer is hereby cancelled.

DK TANEJA
Maj Gen
Addl DGDS

No. 455, dated 21st August, 2008.—The President is pleased to make the following appointments under AI 4/2001 :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Captain (On Probation)

Avaninder Kumar (VS-1140Y), RVC, 12 May 2008

Pramod U (VS-1141F), RVC, 12 May 2008

Ram Ratan (VS-1142K), RVC, 12 May 2008

Vikas Saklani (VS-1143M), RVC, 12 May 2008

Veer Bahadur Singh (VS-1144P), RVC, 12 May 2008

Prince C Kurien (VS-1145X), RVC, 12 May 2008

Harminder Singh Gholia (VS-1146A), RVC, 12 May 2008

Theerta Prasad CS (VS-1147H), RVC, 12 May 2008

P RAMA SASTRY
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 456, dated 21st August, 2008.—The President is pleased to make the following appointment under the provision of SAI 3/S/70 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(a) The undermentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 16 Apr 2008, on relinquishing his Short Service Commission wef 16 Apr 2008 :—

Name, SS No., IC No. allotted & Arms/Services

Anurag Sharma, SS-38131 (IC-56526Y), Arty

(b) The date of seniority in respect of above mentioned officer will be as follows :—

(i) The date of increment of pay — 04 Sep 1999

(ii) The date for promotion — 04 May 2001

(After depressing 12 Months seniority with respect to the date of seniority assigned to the officer of his batch who was granted permanent Commission on completion of 5 years of service).

(c) The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer vis-a-vis SSCOs granted Permanent Commission after 5 years of service will however remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The President is pleased to make the following appointment under the provision of SAI 7/S/66 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(a) The undermentioned Short Service Commissioned Officers are granted Permanent Commission in the rank of

Lt wef 06 Sep 2008, on relinquishing their Short Service Commission wef 06 Sep 2008 :—

Name, SS No., IC No. allotted & Arms/Services

Supinder Singh Sethi, SS-40253 (IC-65902H), Engrs

Pawan Yadav, SS-40263 (IC-65905W), EME

(b) The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows :—

(i) Date for increment of pay — 06 Nov 2001

(ii) Date for promotion — 06 Nov 2001

(c) The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in GN for grant of Short Service Commission.

VS RANADE

Col

Col MS 7

ARMY BRANCH

No. 457, dated 21st August 2008.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

(Special Commission)

The undermentioned 16 NCOs are granted Special Commission in the Arm/Service as shown against their names in the rank of LT under AI 5/97 with effect from 10 Dec 07 as per inter-seniority given below :—

IMA No., Name, Army No., Parent Arm/Service, SCO No. & Arm Service Allotted

S/612 Neeraj Kumar (3997862Y), Inf (SC-00534I), AOC

S/622 P Kathirvelu (JC-376059M), Sigs (SC-00535N), Sigs

S/631 Bikram Singh Rawar (7778523Y), CMP (SC-00536W), AAD

S/621 Somasunderam P (15464895L), AC (SC-00537Y), Engrs

S/616 Hari Babu R (14639654N), EME (SC-00538F), EME

S/614 Praveen Kumar Choudhary (14822029A), ASC (SC-00539K), Inf

S/613 Biju R (15767143L), AAD (SC-00540Y), AC

S/611 Dipak Singh Patwal (15467637W), AC (SC-00541F), Arty

S/618 Ram Singh (14639987A), EME (SC-00542K), EME

S/615 Dilip Singh Nathawat (1491377Y), EME (SC-00543M), Inf

S/630 Devendar Kumar Singh (9512859F), AEC (SC-00544P), Inf

S/623 Amit Thapa (5046671A), Inf (SC-00545X), Arty

S/632 Madhu PC (9512865P), AEC (SC-00546A), Inf

S/620 Risbi Manral (4075197F), ASC (SC-00547H), Inf

S/617 Pandappa Kotagi (15768745L), AAD (SC-00548L), Engrs

S/619 Tarakeshwar Pandey (1490273L), AOC (SC-00549N), Arty

NILESH CHOWDHARY

Major

AMS-8B

ARMY BRANCH

No. 458, dated 22nd August 2008.—The President is pleased to confirm the undermentioned officer in the Permanent Commission on successful completion of probationary period of two years in terms of AI 37/78 as amended :—

REGULAR ARMY

(ARMY DENTAL CORPS)

DIRECT PERMANENT COMMISSION CONFIRMATION

Capt Yuvraj Issar (DR-10579Y), 19 May 2005

The President is pleased to confirm the undermentioned officer in the Short Service Commission on successful completion of probationary period of one year in terms of AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

(ARMY DENTAL CORPS)

SHORT SERVICE COMMISSION CONFIRMATION

Capt Shayon Mukherjee (DS-12185Y), 09 Mar 2006

DK Taneja

Maj Gen

Add DGDS

ARMY BRANCH

No. 459, dated 22nd August 2008.—The President is pleased to make substantive promotions of Brigadier to the undermentioned Corps of Engrs officer seconded to Survey of India :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Brigadier

Name, IC No., Rank, Arms & Date of Sub Brig

Chandan Chatterjee (IC-39855) Col, Engrs, 13 Jun 2002

N K PHUKAN

Dir/MS(X)

ARMY BRANCH

No. 460, dated 22nd August 2008.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against each :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Major to be Lt Col

Lt Col Gagandeep Singh (MR-06670X), 06 Jun 2006

Lt Col S Agarwal (MR-06753H), 04 Jan 2007

Lt Col KN Rao (MR-06769N), 04 Jan 2007
 Lt Col Ashutosh Kumar (MR-07680N), 30 Mar 2008
 Lt Col Ajit Bhargava (MR-07623M), 09 Apr 2008
 Lt Col Vivek Upadhyay (MR-07627H), 14 Apr 2008
 Lt Col Ranjana Bhargava (MR-07956Y), 15 Apr 2008
 Gautam Srivastava (MR-06659Y), AMC, 22 Jan 2006
 KN Ghosal (MR-06677F), AMC, 06 Jun 2006
 Manpreet Rai (MR-07779K), AMC, 08 Mar 2008
 VS Chauhan (MR-06904W), AMC, 03 Apr 2008
 Jyoti Joshi (MR-07587M), AMC, 29 Apr 2008
 PR Roy (MR-07517N), AMC, 08 May 2008
 Manoj Kumar Amar (MR-07940N), AMC, 12 May 2008
 BS Subag (MR-07497L), AMC, 14 May 2008
 Anil Kumar (MR-07162N), AMC, 10 Apr 2006
 JK Kairi (MR-06749A), AMC, 04 Jan 2007
 Pragnya Singh (MR-06759K), AMC, 04 Jan 2007
 R Pipraiya (MR-06836N), AMC, 03 Jul 2007
 Vivek Gupta (MR-07619K), AMC, 07 Apr 2008
 AN Adhulia (MR-07503N), AMC, 29 Apr 2008
 I Venkata Nagesh (MR-07193N), AMC, 28 Mar 2006
 U Nanda Kumar (MR-06791Y), AMC, 04 Jan 2007
 Rajendra Pal Singh (MR-07522Y), AMC, 23 Mar 2008
 M Muruganantham (MR-07671M), AMC, 24 Mar 2008

Capt to be Major

G Parameshwar Reddy (MR-07637M), AMC, 16 Jul 2006
 N Magesh Kumar (MR-08388L), AMC, 09 Dec 2007
 Gautam Singh (MR-08508Y), AMC, 03 Jan 2008
 G Deepak Chandra Reddy (MR-07881M), AMC, 04 Jan 2008
 Rajesh Girdhar (MR-08468H), AMC, 17 Feb 2008
 Ankur Joshi (MR-07863K), AMC, 01 Mar 2008
 Ankur Gupta (MR-08512F), AMC, 29 Mar 2008
 Y Suresh Reddy (MR-07357Y), AMC, 24 Jul 2004

Sqn Ldr to be Wg Cdr

R Mohanty (MR-06810Y)(AF-23455F), AMC, 14 Sep 2006
 PM Rao (MR-06733P)(AF-23160K), AMC, 04 Jan 2007

G RAVINDRANATH
 Brig
 Dy DGAFMS (Pers)

ARMY BRANCH

No. 461, dated 25th August 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION (SC)

Lt to be Capt

SC No., Name & Arm

(00494) Ram Gopal Singh, ASC
 (00495) Jitendra Singh Rana, EME
 (00496) Panchhi Ram, AOC
 (00497) Sat Paul, AOC
 (00498) Laxman Singh, AOC
 (00499) Sri Vivek Kumar, Arty
 (00500) Kuldeep Kumar Bhanot, Arty
 (00501) VG Surya Prabha, ASC

—10 Dec 2007

(00502) Ajit Singh, AOC
 (00503) Kiran Kumar Chhetri, Arty
 (00504) Jitendra Bahadur Singh, Arty
 (00505) Mahesh Singh Kiraula, AOC
 (00506) Goprade AK, Arty
 (00507) Jammalamadaka Mahesh, Arty
 (00508) Vinod Pratap, AOC
 (00509) S Periya Karuppan, Arty

—10 Jun 2008

(64934) Trilok Singh Mehra, ASC
 (64935) Pradeep Chaudhary, Arty
 (65471) Pawan Meet Brar, Inf

—16 Dec 2004

(65661) Jasvinder Singh, Engrs
 (65662) Vinod Bali, Engrs
 (65663) Vijayant Bhushan, EME
 (65664) Ajay Nathyal, Engrs
 (65665) Pradeep Kumar Sachan, Engrs

—10 Nov 2004

(65669) Dhiraj Sudan, AOC
 (65793) Ratan Sain Singh, Sigs
 (65794) Neeraj Dadwal, EME
 (65795) Ajay Kumar Sharma, Engrs
 (65796) Debasish Sinha, EME
 (65797) Fajlul Bari Sarshaar, Engrs

—16 Dec 2004

(65803) Ratan Bahadur, Mech
 (65804) Abhishek Dwivedi, AC
 (65805) Hitesh Kaushik, ASC
 (65806) Manoj Kumar Dwivedi, Arty
 (65809) Sandeep Kumar, AOC

(65810) Nishant Karka, ASC	(65869) Mandeep Shergill, Inf	
(65811) Rakesh Singh, Inf	(65870) Joginder Shekhawat, ASC	
(65815) Neeraj Kapoor, Engrs	(65871) Ansh Mitra, Inf	
(65818) Vijay Kumar, Arty	(65873) Jaideep Singh, AC	
(65819) Vishal Sharma, Inf	(65875) Abhilash Varghese, Inf	
(65820) Aron Gulati, Arty	(65876) Jitendra Chaturvedi, Arty	
(65821) Bhonsle Ajay Uthas, Inf	(65877) Vishal Thapa, Sigs	
(65822) Jaideep Sheoran, Inf	(65879) Shashikiran Deshpande, Engrs	
(65823) Anrinder Singh Walia, AC	(65881) Ankur Sagar, EME	
(65825) H L elth Babu, Inf	(65883) Deepak Chandran M, EME	
(65826) Pradeep Kumar, Inf	(65886) Mayur Dhwaj Nathawat, AC	
(65827) Ramit Hasija, AAD		—08 Nov 2005
(65829) Gopalakrishnan K, Inf	(67830) Joseph Antony C, AEC	
(65830) Mayur Rannu, EME	(67836) Rajesh Paul, AEC	
(65831) Guninder Paul Singh Gagneza, EME	(67841) Satish Kumar Singh, AEC	
(65832) Ambuj Ballava Sahu, Inf	(67843) Amardeep Singh, AEC	
(65835) Kuswa Ramadeep Vijay, Sigs	(67849) Agnivesh Pandey, AEC	
(65837) Sangsongbou Wisunamal, Inf	(67850) Prasun Kanti Goswami, AEC	
(65838) Raj Kumar Sharma, Inf	(67856) Amol Vibhuti Kujur, AEC	
(65839) Vishwanath Tivari, Inf	(67870) Kamal Kapoor, AEC	
(65841) Kulvinder Singh, ASC	(67872) P Davidson Santhoshraj, AEC	
(65842) Pankaj Kumar, Arty	(67879) P Sreenivas, AEC	
(65844) Vijay Rao, ASC	(67881) Amit Solor, AEC	
(65846) Diler Singh Jakhar, Arty		—10 Dec 2007
(65847) Rajeev Yadav, Arty	(67282) Manoj Lakhera, AEC	
(65849) Dharam Jot Singh, Inf	(67298) Chhaya Nikur Kashyap Kumar, AEC	
(65850) Manpal Singh Dhanoo, Inf	(67308) Yelswarappa Pavan Kumar, AEC	
(65851) Abhinshake Rai, ASC	(67315) Ashish K Parmar, AEC	
(65854) Amardeep Singh, ASC	(67335) Sachin Channoh, AEC	
(65855) Sachin Kaushal, Engrs	(67341) Pankaj Kumar, AEC	
(65856) Kamaljeet Singh Lavana, Engrs	(67342) Amarjeet Singh, AEC	
(65857) Sartaj Mehta, Arty	(67346) Shyam Krishna TP, AEC	
(65858) Rahul Sharma, AOC	(67358) Pradeep Singh Khatri, AEC	
(65859) Pankaj Jaswal, Engrs	(67363) Ratish Ramesh, AEC	
(65861) Gopalkrishna J, EME	(67373) Kirupakaran V, AEC	
(65862) Amit Sharma, Engrs	(67381) Parjeet Pal Singh, AEC	
(65863) Amit Chauhan, Inf		—11 Jun 2007
(65864) Sooraj S, Inf	(64738) Amit Basi, Sigs	
(65865) Abhilash Kochukaleeckel, Arty	(64739) Harish Prakash, Sigs	—10 Dec 2006
(65866) Sushil Lakhanpal, EME	(65173) Manish Gupta, AC	—16 Dec 2004
(65868) Amaninder, Inf		

WS No.	Name	Arm	DOS	Course	Revised Date of Seniority for Promotion	Date of Promotion for Subs Capt
WS-00856	Vijeyata Thakur	EME	20 Mar 2004	WSESO-23(NT)	20 Mar 2005	20 Mar 2007
WS-00870	Ghosh Vidisha Ramendu Sundar	Sigs	20 Mar 2002	WSESO-23(T)	20 Sep 2002	16 Dec 2004
WS-00880	Gunjan Gupta	Sigs	20 Mar 2002	WSESO-23(T)	20 Sep 2002	16 Dec 2004
WS-00908	Rajni Sharma	JAG	20 Mar 2004	WSESO-23(NT)	20 Mar 2005	20 Mar 2007
WS-00909	Divjot Kaur Chawla	ASC	20 Mar 2004	WSESO-23(NT)	20 Mar 2005	20 Mar 2007
WS-00911	Latika Shukla	ASC	20 Mar 2004	WSESO-23(NT)	20 Mar 2005	20 Mar 2007
WS-00923	Vidya Nair	AAD	17 Sep 2004	WSESO-24(NT)	17 Sep 2005	17 Sep 2007
WS-00930	Rishita Acharya	EME	17 Sep 2002	WSESO-24(T)	17 Mar 2003	17 Mar 2005
WS-00933	Divya Gaur	ASC	17 Sep 2004	WSESO-24(NT)	17 Sep 2005	17 Sep 2007
WS-00936	Ratna Malik	AAD	17 Sep 2004	WSESO-24(NT)	17 Sep 2005	17 Sep 2007
WS-00988	Jadhav Charushila Madhukar	Engrs	17 Sep 2002	WSESO-24(T)	17 Mar 2003	17 Mar 2005
WS-01002	Nandini Sen	Sigs	19 Mar 2003	WSESO-25(T)	19 Sep 2003	19 Sep 2005
WS-01067	Leena Bajaj	AEC	19 Mar 2003	WSESO-25(NT)	19 Sep 2005	19 Sep 2007
WS-01143	Padman Anita Ashok	EME	21 Mar 2004	WSESO-27(T)	21 Sep 2004	21 Sep 2006
WS-01166	Aanchal Porwal	EME	21 Mar 2004	WSESO-27(T)	21 Sep 2004	21 Sep 2006

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Lt to be Capt

SS No.	Name	Arm	Date of Seniority	Course	Revised Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs Rank of Capt
SS-40426	Ratnesh Kumar	AAD	06 Sep 2003	SSC-76(NT)	06 May 2004	06 May 2006
SS-40540	Prabhat Rai	AOC	20 Mar 2004	SSC-77(NT)	20 Oct 2004	20 Oct 2006
SS-40639	Lalit Sehgal	Inf	20 Mar 2004	SSC-77(NT)	20 Oct 2004	20 Oct 2006
SS-40830	Dharmender B Jadeja	Engrs	17 Sep 2002	SSC-21(T)	17 Oct 2002	16 Dec 2004
SS-40980	Konjengbam Rajesh Banta Singh	Arty	17 Sep 2004	SSC-78(NT)	17 Apr 2005	17 Apr 2007
SS-41031	Devdutt Sharma	AOC	17 Sep 2004	SSC-78(NT)	17 Apr 2005	17 Apr 2007
SS-41048	Asif Ahmed K	Inf	17 Sep 2004	SSC-78(NT)	17 Apr 2005	17 Apr 2007
SS-41305	Debasish Mishra	Arty	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41366	Auchin Deep Sharma	AOC	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007

SS No.	Name	Arm	Date of Commission	Date of Seniority	Course	Revised Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs Rank of Capt
1	2	3	4	5	6	7	8
SS-39441	Ribesh Sinha	Arty	01 Sep 2001	01 Sep 2001	SSC-72(NT)	01 May 2002	16 Dec 2004
SS-40308	Deepak Kumar Yadav	Inf	06 Sep 2003	06 Sep 2003	SSC-76(NT)	06 May 2004	06 May 2006
SS-41220	Amarjeet Singh	Mech	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41223	Pratik Prabhakar	Arty	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41224	Amit Aukta	Inf	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41225	Jasbir Singh	AOC	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41240	Ashish Agashe	AAD	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41242	Dharmendra Bhatt	Inf	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41252	Bhanu Pratap Singh Bhatwal	Inf	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41262	P Dalhenmawi Gangte	Inf	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41265	Rajesh Prakash Solanki	Inf	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41274	Ram Naresh Singh	ASC	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41287	Abhinav Handa	ASC	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41291	Deepak Shahi	Arty	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41293	Digvijay Annasaheb Deshmukh	Arty	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41300	Bagayatkar Amol Sanjiv	Mech	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41304	Pushpender Pal Singh	AC	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41314	Aheibam Basanta Singh	Arty	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41325	Rakesh Kumar	ASC	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41332	Brijesh Singh	Inf	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41336	Sandeep Yadav	Arty	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41337	Atma Prakash	AOC	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41339	Ashish Tripathi	AAD	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41340	Mahajan Anup Amol	Arty	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41349	Gaurav Sood	AC	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41352	Pradyut Ghosal	Arty	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41364	Vaibhav Singh	AC	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-41365	Tushar Chauhan	Inf	19 Mar 2005	19 Mar 2005	SSC-79(NT)	19 Oct 2005	19 Oct 2007
SS-42125	Patil Prashant Ravindra	Engrs	16 Sep 2006	18 Sep 2004	SSC-25(T)	18 Oct 2004	18 Oct 2006
SS-42127	Yogesh Kumar	Engrs	16 Sep 2006	18 Sep 2004	SSC-25(T)	18 Oct 2004	18 Oct 2006

1	2	3	4	5	6	7	8
SS-42128	Abhishek Mittal	Sigs	16 Sep 2006	18 Sep 2004	SSC-25(T)	18 Oct 2004	18 Oct 2006
SS-42129	Maresh Babu D	EME	16 Sep 2006	18 Sep 2004	SSC-25(T)	18 Oct 2004	18 Oct 2006
SS-42139	Abhaya Kumar Chaturvedi	EME	16 Sep 2006	18 Sep 2004	SSC-25(T)	18 Oct 2004	18 Oct 2006
SS-42141	Ankit Chaudhary	Sigs	16 Sep 2006	18 Sep 2004	SSC-25(T)	18 Oct 2004	18 Oct 2006
SS-42144	Sushil Kumar	EME	16 Sep 2006	18 Sep 2004	SSC-25(T)	18 Oct 2004	18 Oct 2006
SS-40508	Vishal Arora	EME	20 Mar 2004	20 Mar 2002	SSC-20(T)	20 Apr 2002	16 Dec 2004
SS-40578	Charandeep Singh Maini	Inf	20 Mar 2004	20 Mar 2004	SSC-77(NT)	20 Oct 2004	20 Oct 2006
SS-40670	Abhishek Joshi	Arty	20 Mar 2004	20 Mar 2004	SSC-77(NT)	20 Oct 2004	20 Oct 2006
SS-40863	Sandeep Kumar Ranaut	Sigs	17 Sep 2004	17 Sep 2002	SSC-21(T)	17 Oct 2002	16 Dec 2004
SS-40879	Chao Lengdon Chaocing	Inf	17 Sep 2004	17 Sep 2004	SSC-78(NT)	17 Apr 2005	17 Apr 2007
SS-41030	Ashok Kumar Yadav	Arty	17 Sep 2004	17 Sep 2004	SSC-78(NT)	17 Apr 2005	17 Apr 2007
SS-41066	Sameer Singh	Inf	17 Sep 2004	17 Sep 2004	SSC-78(NT)	17 Apr 2005	17 Apr 2007

SS No.	Name	Arm	Seniority	Course	Revised date of Seniority	Date of grant of subs rank of Capt
1	2	3	4	5	6	7
SS-41513	Sudhir Gulia	Mech	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41530	Hameet Singh Sangha	Mech	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41537	Shamsher Singh	Engrs	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41549	Saurabh Sharma	AAD	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41555	Dushyant	Mech	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41560	Laxman Singh	Inf	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41564	Sanjeev G	Engrs	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41579	Mukesh Sharma	Inf	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41586	Devinder Kumar Bhagat	Inf	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41595	Suman Gandhi Marabhattula	Inf	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41597	Jitendra Naruka	Inf	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41601	Sukant Krishana Joshi	Inf	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41638	Gaurav Pandey	Inf	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41641	Golvekar Hemang Kamalakar	Inf	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41648	Vishwasrao Prashant Prakash	Inf	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41651	Subodh Sudan	Mech	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41678	Akshay Deep Sharma	Engrs	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41680	Puneet Anand Mishra	Inf	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41684	C Arvind Reddy	Inf	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008

1	2	3	4	5	6	7
SS-41691	Rohit Kumar Dalal	AOC	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41703	Harpreet Singh Walia	ASC	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41708	T. Santosh	Engrs	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41711	Digvijay Juyal	Inf	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008
SS-41724	Rohit Ane	Inf	17 Sep 2005	SSC-80(NT)	17 Apr 2006	17 Apr 2008

SHORT SERVICE COMMISSION (WSES)

Lt to be Capt

WS No.	Name	Arm	Date of Seniority	Course	Revised date of Seniority for Promotion	Date of Promotion for Substantive Capt
1	2	3	4	5	6	7
WS-00815	Saroj Gupta	AOC	06 Sep 2003	WSESO-22(NT)	06 Sep 2004	06 Sep 2006
WS-00875	Guraj Jasneetkaur Jagtar Singh	ASC	20 Mar 2004	WSESO-23(NT)	20 Mar 2005	20 Mar 2007
WS-00910	Babita	Engrs	20 Mar 2002	WSESO-23(T)	20 Sep 2002	16 Dec 2004
WS-00915	Pallavi Jarnwal	AOC	20 Mar 2004	WSESO-23(NT)	20 Mar 2005	20 Mar 2007
WS-00916	Priiti Tiwari	AOC	20 Mar 2004	WSESO-23(NT)	20 Mar 2005	20 Mar 2007
WS-00932	Daniwalla Arnavaz Kersi	Sigs	17 Sep 2004	WSESO-24(NT)	17 Sep 2005	17 Sep 2007
WS-00942	Shalini Kandan	AEC	17 Sep 2004	WSESO-24(NT)	17 Mar 2005	17 Mar 2007
WS-00951	Meenal Chaudhan	Engrs	17 Sep 2002	WSESO-24(T)	17 Mar 2003	17 Mar 2005
WS-01112	Geetargali Sanan	Engrs	17 Sep 2003	WSESO-26(T)	17 Mar 2004	17 Mar 2006
WS-01173	Tarini Shukla	Engrs	21 Mar 2004	WSESO-27(T)	21 Sep 2004	21 Sep 2006
WS-01212	Vibhuti Sharma	Sigs	18 Sep 2004	WSESO-28(T)	18 Mar 2005	18 Mar 2007
WS-01223	Alamu Al	Engrs	18 Sep 2004	WSESO-28(T)	18 Mar 2005	18 Mar 2007
WS-01225	Pillai Anita Ravi	EME	18 Sep 2004	WSESO-28(T)	18 Mar 2005	18 Mar 2007
WS-01230	Aknti Sharma	EME	18 Sep 2004	WSESO-28(T)	18 Mar 2005	18 Mar 2007
WS-01240	Sunidhu Aerry	Sigs	18 Sep 2004	WSESO-28(T)	18 Mar 2005	18 Mar 2007
WS-01241	Sarbjee K Gill	EME	18 Sep 2004	WSESO-28(T)	18 Mar 2005	18 Mar 2007
WS-01257	Thakur Rupali Dilip Shingh	Sigs	18 Sep 2004	WSESO-28(T)	18 Mar 2005	18 Mar 2007
WS-01270	Jayshree Nam	Sigs	18 Sep 2004	WSESO-28(T)	18 Mar 2005	18 Mar 2007
WS-01274	Sandeep Kaur	Sigs	18 Sep 2004	WSESO-28(T)	18 Mar 2005	18 Mar 2007
WS-01278	Maitree Yadav	EME	18 Sep 2004	WSESO-28(T)	18 Mar 2005	18 Mar 2007

WS No, Name, Arm and Date

WS-00687 Riya Shrivastav, AOC—07 Sep 2007

WS-00816 Sunayana Bhure, Inf—06 Sep 2006

WS-00863 Garima Singh, Engrs—20 Mar 2007

WS-00882 Anshulu, EME—20 Mar 2007

WS No, Name, Arm and Date

WS-00900 Potdar Shubhangi Ullam Kumar, Sigs—20 Mar 2007

WS-00742 Sunita Bisht, Engrs—08 Mar 2008

WS-00753 Purnima Kumar, AOC—08 Mar 2008

WS-00768 Nisha Joshi, Sigs—08 Mar 2008

SHORT SERVICE COMMISSION (WSES)

Lt to be Capt

WS No.	Name	Arm	Date of Seniority	Course	Revised date of Seniority	Date of Promotion for Substantive Capt
1	2	3	4	5	6	7
WS-01003	Anuradha Mishra	ASC	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008
WS-01008	Navnika Kapil	EME	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008
WS-01012	Pushpa Kumari	Engrs	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008
WS-01015	Bhawana	AAD	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008
WS-01026	Pooja Chauhan	Engrs	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008
WS-01030	Nidhi Bagdwal	ASC	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008
WS-01040	Saloni Kuthari	AAD	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008
WS-01041	Anita Sral	AOC	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008
WS-01042	Snigdha Sharma	Engrs	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008
WS-01043	Sharda Tripathi	AOC	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008
WS-01044	Arti Chopra	AOC	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008
WS-01045	Vrishali	Int	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008
WS-01046	Kajal Bali	AOC	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008
WS-01050	Gunjan Seth	EME	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008
WS-01055	Smitha M A	ASC	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008
WS-01060	Shivani	Engrs	19 Mar 2005	WSESO-25 (NT)	19 Mar 2006	19 Mar 2008

JASWANT SINGH

Jt Dir
MS-8C

ARMY BRANCH

No. 462, dated 25 August 2008—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

To be Substantive Subedar

Sub Rem Bahadur Thapa (JC-826144F), 01 Mar 2008

Sub Mithilesh Singh (JC-826145K), 01 Apr 2008

Sub Paryag Singh (JC-826146M), 01 Apr 2008

P. P. SINGH
Under Secy.

ARMY BRANCH

REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

No. 463, dated 26 August 2008—The President is pleased to make the following promotions:—

To be Naib Subedar: Clk (GD)

Hav Ram Raj (No. 6379145N now JC-664762M), 25 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Kamlesh Kumar (No. 6379538K now JC-664712W), 01 Nov 2007*

Hav Dina Nath Ram (No. 6379894K now JC-664785N), 24 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Jagdish Singh (No. 6380106J now JC-664763P), 27 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Kailash Singh Karnavanshi (No. 6380123J now JC-664771N), 01 Nov 2007

Hav Lalita Prasad (No. 6380138K now JC-664766H), 18 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Abhay Singh Yadav (No. 6380142M now JC-664765A), 26 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Pale Ram (No. 6380149W now JC-664770J), 03 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Bhanwar Singh Rajora (No. 6380299M now JC-664773Y), 01 Nov 2007

Hav Brijpal Singh (No. 6380407J now JC-664767L), 31 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Rudra Pratap Singh (No. 6380416M now JC-664769W), 01 Nov 2007

Hav Dinanath Yadav (No. 6380477K now JC-664768N), 01 Nov 2007

Hav Girish Narayan Tiwari (No. 6380510W now JC-664774F), 01 Nov 2007

Hav Ashok Kumar Gupta (No. 6380512F now JC-664775K), 01 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Ami Chand Singh (No. 6380554N now JC-664776M), 01 Nov 2007

Hav Bhaskaramand (No. 6380601A now JC-664777P), 01 Nov 2007

Hav Jay Prakash (No. 6380657M now JC-664778X), 01 Nov 2007

Hav Vasudevan P (No. 6380702N now JC-664779A), 01 Nov 2007

Hav Radha Ballav Sumar (No. 6380712X now JC-664780P), 01 Nov 2007

Hav Ramesh Chand Sheoran (No. 6380718Y now JC-664781X), 01 Nov 2007

Hav Vijay Kumar (No. 6471991F now JC-664764X), 25 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Kamal Kishore Singh (No. 13889096F now JC-664761K), 26 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Sudhakar Pathak (No. 6379949H now JC-664887W), 23 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Surya Nath Singh Yadav (No. 6380483X now JC-664843M), 06 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Suresh Singh Lagwal (No. 6380549H now JC-664867M), 16 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Naveen Chandru Chandola (No. 6387163L now JC-664890K), 01 Dec 2007

Hav Manoj Kumar Mohanty (No. 6387545P now JC-664783H), 01 Dec 2007

Hav Syed Md Zahid Hussain (No. 6388058F now JC-664784L), 01 Dec 2007

Hav S Suku (No. 6388063M now JC-664869F), 01 Dec 2007

Hav Ved Prakash (No. 6388073W now JC-664889P), 01 Dec 2007

Hav Ajit Kumar (No. 6388076K now JC-664870W), 01 Dec 2007

Hav Harvir Singh (No. 6388080M now JC-664872F), 01 Dec 2007

Hav Kuldeep Singh (No. 6388139F now JC-664891M), 01 Dec 2007

Nb Sub Irappa Binada (JC-642342M), 20 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007).

Nb Sub Anup Singh Dahiya (JC-642376A), 17 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007).

Nb Sub Sudarshan Singh (JC-642450W), 02 Nov 2007*

*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007).

Nb Sub Ved Prakash (JC-642457A), 03 Oct 2007*

*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007).

Nb Sub Salim Baig (JC-642494N), 01 Nov 2007

Nb Sub Ved Prakash (JC-642498K), 01 Nov 2007

Nb Sub Abhay Charan Mandal (JC-642500W), 12 Nov 2007*

*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007).

Nb Sub Santosh Kumar (JC-642645F), 01 Dec 2007

Nb Sub Ram Kumar (JC-642661Y), 01 Dec 2007

Nb Sub Hari Pada Das (JC-642671H), 01 Dec 2007

Nb Sub Rattan Vir (JC-642501Y), 01 Nov 2007

Nb Sub Hemant Kumar Singh (JC-642502F), 01 Nov 2007

Nb Sub Aditya Kumar Verma (JC-642506X), 01 Nov 2007

Nb Sub Kirandan Singh Tomer (JC-642507A), 01 Nov 2007

Nb Sub Subhash Chander (JC-642508H), 01 Nov 2007

Nb Sub Randhir Singh (JC-642510A), 01 Nov 2007

Nb Sub Ushpal Singh (JC-642511H), 03 Nov 2007*

*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007).

Nb Sub Ram Dular Tiwari (JC-642512L), 01 Nov 2007

Nb Sub Tara Chand Yadav (JC-642643W), 01 Nov 2007

To be Naib Subedar Clk (GD/SD)

Hav Dalbir Singh (No. 13887264W now JC-665042X), 10 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allces).

Hav Tilak Raj (No. 6379366A now JC-664986M), 31 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allces).

Hav Devendra Singh Tongar (No. 6379975K now JC-664923K), 01 Jan 2008

Hav Chilbule Prabhakar Bali Ram (No. 6380000P now JC-665041P), 22 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allces).

Hav Bishnu Kant Ray (No. 6380031P now JC-664921Y), 01 Jan 2008

Hav Birkandey Chaubey (No. 6380044M now JC-664922F), 01 Jan 2008

Hav Ram Phal (No. 6380060K now JC-664924M), 01 Jan 2008

Hav Binod Kumar Gupta (No. 6380070N now JC-664925P), 06 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allces).

Hav Rajender Singh (No. 6380068W now JC-665043A), 12 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allces).

Hav Pathney Satish Prabhakar (No. 6380076P now JC-664926X), 01 Jan 2008

Hav Dharam Singh (No. 6380084N now JC-664927A), 01 Jan 2008

To be Naib Subedar: PA

Hav Akshay Kumar (No. 6378201P now JC-664707W), 10 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allces).

Hav Sumit Kumar Rana (No. 1081560A now JC-664988X), 01 Jan 2008

Hav Unikrishnan KG (No. 14496479Y now JC-664991X), 01 Jan 2008

Hav BB Singh (No. 6382673H now JC-665039X), 01 Feb 2008

Hav James KC (No. 6382756N now JC-665040M), 01 Feb 2008

Hav Yougamber Singh (No. 6383116W now JC-664989A), 01 Jan 2008

Hav R Sivan (No. 5245585K now JC-664916N), 01 Jan 2008

Hav K Bala Kumar (No. 6383704K now JC-664990P), 01 Jan 2008

Hav Shaikh Hajrat Ali (No. 6385557L now JC-665036K), 22 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allces).

Hav Rajendra Kumar Barik (No. 6385827P now JC-665037M), 31 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allces).

Hav VD Rane (No. 6385426A now JC-665038P), 17 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allces).

To be Naib Subedar: Clk (GD/SD)

Hav Naresh Kumar (No. 6379835X now JC-664649X), 01 Sep 2007

Hav Jalim Singh (No. 6379849X now JC-664572A), 01 Sep 2007

Hav Murali R (No. 6379855L now JC-664578F), 01 Sep 2007

Hav Samar Ghosh (No. 6379857W now JC-664648P), 01 Sep 2007

Hav Ram Bahadur Saini (No. 6379860W now JC-664568X), 01 Sep 2007

Hav Sanjay Kumar Munda (No. 6379867A now JC-664569A), 01 Sep 2007

Hav Raj Pal (No. 6379870A now JC-664645F), 01 Sep 2007

Hav Dhan Raj (No. 6379872L now JC-664570P), 01 Sep 2007

Hav Sudhangshu Biswas (No. 6379875Y now JC-664571X), 01 Sep 2007

Hav Tap Narayan Pandey (No. 6379884A now JC-664573H), 01 Sep 2007

Hav Rabindra Kumar Ojha (No. 6379886L now JC-664574L), 01 Sep 2007

Hav Bhishmadeb Hazra (No. 6379889Y now JC-664575N), 01 Sep 2007

Hav Bholanath Saha (No. 6379898A now JC-664576W), 01 Sep 2007

Hav Akul Chandra Mondal (No. 6379901P now JC-664577Y), 01 Sep 2007

Hav Ram Kumar Verma (No. 6379914M now JC-664646K), 01 Sep 2007

Hav Ram Samban (No. 6379915P now JC-664647M), 01 Sep 2007

Hav Mahesh Chandra (No. 6379924W now JC-664648M), 01 Sep 2007

Hav Surendra Prasad Singh (No. 6379947X now JC-664651P), 01 Sep 2007

Hav Ramesh Kumar Pandey (No. 6385887K now JC-664644Y), 28 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Para Sharma Patil (No. 6379073P now JC-664796A), 01 Nov 2007

Hav Vishwanath Singh (No. 6379864M now JC-664845X), 01 Nov 2007

Hav Swarni Dayal (No. 6379917A now JC-664787Y), 26 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Kailash Pal (No. 6379913K now JC-664786W), 27 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Rajendra Singh (No. 6379969W now JC-664788F), 29 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Suryawansi Vilas Pandurang (No. 6379979A now JC-664789K), 29 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Shashi Kumar (No. 6379988F now JC-664790Y), 26 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Surya Prakash Pathak (No. 6380002A now JC-664793M), 15 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Shiwaji Giri (No. 6380007Y now JC-664794P), 01 Nov 2007

Hav Shree Bhagwan Ojha (No. 6380009K now JC-664795N), 01 Nov 2007

Hav Bartwal Shaifesh Singh (No. 6380013M now JC-664844P), 06 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Jay Nath Sahu (No. 6380025L now JC-664798J), 01 Nov 2007

Hav Sri Dinesh Kumar Savita (No. 6380034H now JC-664797H), 01 Nov 2007

Hav K Adam Laxman Balawant (No. 6380055Y now JC-664799N), 01 Nov 2007

Hav Suresh Kumar (No. 6376716W now JC-664847H), 01 Dec 2007

Hav Lifu Singh (No. 6376826L now JC-664809M), 01 Dec 2007

Hav Jaga Bandhu Biswas (No. 6377357A now JC-664848L), 01 Dec 2007

Hav Bhoj Raj Singh (No. 6377938X now JC-664806Y), 01 Dec 2007

Hav Jiwan Kumar (No. 63890607M now JC-664808K), 01 Dec 2007

Hav K Subbiah (No. 6379092A now JC-664919F), 29 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Dinesh Prasad (No. 63887032X now JC-664807F), 01 Dec 2007

Hav Daya Nand (No. 63890924N now JC-664810F), 01 Dec 2007

Hav Chhedi Lal (No. 6379840H now JC-664801A), 01 Dec 2007

Hav Pratap Chand (No. 6379896P now JC-664800X), 01 Dec 2007

Hav Ramesh Tiwari (No. 6380001X now JC-664792K),
29 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007
without effect on pay and allces).

Hav Prabhakar Dube (No. 6379999N now JC-664791F),
27 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007
without effect on pay and allces).

Hav Mehar Singh (No. 6382238N now JC-664920W),
01 Dec 2007

Hav Md Sariful Islam (No. 6385830P now JC-664802H),
01 Dec 2007

Hav Pravanjan Paria (No. 6385802H now JC-664846A),
01 Dec 2007

Hav Dipak Kumar Mallick (No. 6386700Y now JC-664803L),
01 Dec 2007

Hav Jitendra Kumar (No. 6387080A now JC-664952Y),
05 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007
without effect on pay and allces).

Hav Jagdish Singh (No. 6387109X now JC-66804N), 01 Dec
2007

Hav Harish Chandra (No. 6387329F now JC-664805W),
01 Dec 2007

To be Naib Subedar : PA

Hav G M Raja Ram (No. 2479189F now JC-664554X),
01 Sep 2007

Hav Dal Chand (No. 6382904N now JC-664551K), 02 Sep
2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007
without effect on pay and allces).

Hav RKS Chauhan (No. 6383117Y now JC-664552M),
01 Sep 2007

Hav Rajendra Kumar Awale (No. 6383164W now JC-
664553P), 01 Sep 2007

Hav Satish Chandra (No. 14912346H now JC-664813P),
01 Nov 2007

Hav Promod Kumar Panda (No. 6381230P now JC-664732P),
01 Nov 2007

Hav Raghuraj Singh (No. 6381905K now JC-664733X),
01 Nov 2007

Hav BK Samal (No. 2882731L now JC-664737N), 01 Dec
2007

Hav B Bhattacharjee (No. 9418342X now JC-664915L), 13
Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007
without effect on pay and allces).

Hav Tara Chand (No. 14586588M now JC-664735H), 03 Dec
2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007
without effect on pay and allces).

Hav Mallapur Basana Gouda (No. 6381442H now JC-
664738W), 01 Dec 2007

Hav Amrendra Kumar Singh (No. 14592952W now JC-
664736L), 01 Dec 2007

Hav Mahendra Kumar Shukla (No. 4467192F now JC-
664914H), 13 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007
without effect on pay and allces).

Hav Suresh Kumar MK (No. 14597982X now JC-664811K),
01 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007
without effect on pay and allces).

Hav BS Ramani (No. 6382438K now JC-664734A), 01 Dec
2007

Hav Ashok Kumar Sankhla (No. 15359237A now JC-
664731M), 23 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007
without effect on pay and allces).

Hav KM Balasubramanian (No. 2884807Y now JC-
664812M), 31 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007
without effect on pay and allces).

Hav P Ramanathan (No. 8031748A now JC-664608N), 10
Sep 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007
without effect on pay and allces).

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Nb Sub

BHM Gyan Singh (No. 14393533F now JC-271809F), 15 Jan
2008/01 Jan 2008*

Hav Rajeshwar Singh (No. 14480952P now JC-271810W),
10 Jan 2008/01 Jan 2008*

Hav Roshan Singh (No. 14367956X now JC-271811Y),
03 Mar 2008/01 Jan 2008*

Hav Chenna Kesavula Mahan (No. 14402484N now JC-
271812F), 21 Feb 2008/01 Feb 2008*

Hav Sri Ram Kishor Sharma (No. 14367231X now JC-
271813K), 18 Mar 2008/01 Feb 2008*

Hav Arun Singh (No. 14386244K now JC-271814M), 03 Mar
2008/01 Feb 2008*

Hav Lakhbir Singh (No. 15100141W now JC-271815P),
09 Apr 2008/01 Feb 2008*

Hav D Erhu Raju (No. 14394071M now JC-271816X),
21 May 2008/25 Feb 2008*

RHM Purn Prasad Thapa (No. 14388737K now JC-
271817A), 01 Mar 2008

BHM Kanthale Dilip Dashrath (No. 14394268I now JC-
271818I), 01 Mar 2008

Hav R Muruganandam (No. 15104503K now JC-271819L),
08 Apr 2008/01 Mar 2008*

Hav Rattan Singh (No. 15106030P now JC-271820A),
08 May 2008/01 Mar 2008*

Hav Avtar Singh (No. 15100852W now JC-271821H),
15 Mar 2008/10 Mar 2008*

BHM Chandranu Singh Yadav (No. 14485864H now JC-
271822I), 15 Apr 2008/27 Mar 2008*

Hav Gadekar Ashok Ramkisan (No. 15115874M now JC-
271823N), 28 May 2008/01 May 2008*

BHM Babu Ram (No. 15103884K now JC-271824W), 01 Jun
2008

Hav Shailendra Kumar Dubey (No. 14495304K now JC-
271825Y), 06 Feb 2008/01 Nov 2007*

Hav Shri Ram Gurjar (No. 14390254L now JC-271826F),
15 May 2008/01 Jan 2008*

RHM Soban Singh (No. 14369106M now JC-271827K),
12 Feb 2008/01 Jan 2008*

Hav Mallappa (No. 14498058P now JC-271828M), 21 Jan
2008/01 Jan 2008*

BHM Resham Singh (No. 14485026N now JC-271829P),
20 Jan 2008/01 Jan 2008*

Hav Sajjan Kumar (No. 15104055H now JC-271830K),
22 Feb 2008/23 Jan 2008*

Hav Ram Lal Sharma (No. 14491012K now JC-271831M),
04 May 2008/01 Feb 2008*

RHM Jiten Nandu Sudra (No. 14400178A now JC-271832P),
25 Feb 2008/01 Feb 2008*

Hav Manjit Singh (No. 14486596W now JC-271833X),
08 Mar 2008/13 Feb 2008*

Hav Jitender Singh (No. 14374800H now JC-271834A),
19 Apr 2008/01 Mar 2008*

Hav Sukhwinder Singh (No. 14369920X now JC-271835I),
07 May 2008/01 Apr 2008*

Hav Manager Singh (No. 14379520Y now JC-271836L),
01 Apr 2008/01 Apr 2008*

Hav Parmod Kumar Pandey (No. 14498270M now JC-
271837N), 29 May 2008/01 Apr 2008*

Hav Vinod Kumar Rai (No. 14499343A now JC-271838W),
01 May 2008

Hav Nakka Venkateswarlu (No. 14494138P now JC-
271839Y), 01 May 2008

RHM Nirmal Singh (No. 15101217X now JC-271840N),
01 Jun 2008

RHM OS Murah (No. 15117160X now JC-271766X), 10 Jun
2008/01 Jun 2008*

RHM M Rajaguru (No. 14406738X now JC-271767A),
01 Jun 2008

Hav Babu Raj KP (No. 14393552M now JC-271768H),
16 Feb 2008/01 Sep 2007*

Hav Kedar Singh (No. 14372590P now JC-271769L), 28 Dec
2007/12 Dec 2007*

Hav Sajith Joshy MJ (No. 15133617X now JC-271770A),
12 Apr 2008/01 Jan 2008*

Hav Shanti Swaroop (No. 14390811Y now JC-271771I),
14 Mar 2008/01 Jan 2008*

Hav Ram Kumar (No. 14378671L now JC-271772L), 23 Feb
2008/01 Feb 2008*

Hav Raj Kumar Tiwan (No. 14498990N now JC-271773N),
29 Feb 2008/12 Feb 2008*

Hav Attar Singh (No. 14374531F now JC-271774W), 19 May
2008/25 Feb 2008*

Hav P Ramesh Reddy (No. 14374787K now JC-271775Y),
23 Mar 2008/27 Feb 2008*

BHM Tarseem Singh (No. 15105406Y now JC-271776J),
16 Apr 2008/29 Mar 2008*

Hav Dharam Pal (No. 14383490K now JC-271777K),
19 Apr 2008/01 Apr 2008*

Hav Martin VK (No. 14485278A now JC-271778M), 28 Apr
2008/01 Apr 2008*

Hav Kaushik Chandra Paul (No. 14372806I now JC-
271779P), 19 Apr 2008/01 Apr 2008*

Hav Surender Kumar (No. 15100628K now JC-271780K),
05 Apr 2008/01 Apr 2008*

Hav Bagga Singh (No. 14386309M now JC-271781M),
01 Apr 2008

BHM Lala Ram Yadav (No. 15108708W now JC-271782P),
02 May 2008/06 Apr 2008*

Hav Baljit Singh (No. 14485871Y now JC-271783X), 08 May
2008/01 May 2008*

Hav Mahender Singh (No. 15104774F now JC-271793F),
09 Jan 2008/01 Aug 2007*

BHM Ravinder Singh Chauhan (No. 14497162W now JC-
271794K), 14 Jan 2008/12 Nov 2007*

RHM Devendra Kumar Katara (No. 14498403X now JC-271795M), 02 Feb 2008/01 Dec 2007*

Hav Paranjeet Singh (No. 14379506M now JC-271796P), 16 Jan 2008/04 Dec 2007*

Hav Shiv Nandan Yadav (No. 14372081W now JC-271797X), 09 Apr 2008/10 Dec 2007*

Hav Dharambeer Singh (No. 15105122P now JC-271798A), 17 Apr 2008/01 Jan 2008*

Hav Jaidev Singh (No. 14498600A now JC-271799H), 24 Apr 2008/01 Jan 2008*

Hav Nandji Singh Yadav (No. 14367179A now JC-271800M), 13 Feb 2008/09 Jan 2008*

Hav Mali Shantaram Jagannath (No. 14498972L now JC-271801P), 24 Apr 2008/01 Feb 2008*

Hav Siya Ram Singh (No. 14488034X now JC-271802X), 19 Apr 2008/01 Feb 2008*

Hav Ranga Seela Ramulu (No. 14388316F now JC-271803A), 03 May 2008/01 Feb 2008*

Hav Nalawade Ashok Abasaheb (No. 14493277M now JC-271804H), 04 Feb 2008/01 Feb 2008*

Hav Chanan Ram (No. 14498375W now JC-271805L), 02 May 2008/13 Feb 2008*

Hav Shanshar Chand (No. 14486908F now JC-271806N), 25 Mar 2008/01 Mar 2008*

Hav Hoshnar Singh Mehta (No. 14393242F now JC-271807W), 01 Apr 2008

Hav Fakir Singh (No. 15103503X now JC-271808Y), 01 Jun 2008

(*Gtd seniority wef)

PRAMA SASTRY
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 464, the 26th August 2008.—The President is pleased to make the following Appointments/Promotions :—

Hav to be Nb sub ARMR

Dhruva Kishor Singh (No. 14554482M now JC-762224P), 01 Apr 2008/01 Apr 2008*

Vakil Singh Kushwaha (No. 14553803M now JC-762455L), 01 May 2008/01 May 2008*

Hav to be Nb Sub AVF (AF)

Subhash Chand (No. 14566115M now JC-762302F), 01 Apr 2008/01 Apr 2008*

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Deba Narayan Pradhan (No. 14568573F now JC-762452X), 01 May 2008/01 May 2008*

Desh Raj Yadav (No. 14568623F now 762543F), 07 May 2008/01 May 2008*

Dhrub Singh Pathania (No. 14568574K now JC-762453A), 01 May 2008/01 May 2008*

Gurcharan Singh (No. 14568521L now JC-762448P), 01 May 2008/01 May 2008*

Mohan Singh Rawat (No. 14555837Y now JC-762167Y), 20 Mar 2008/03 Jun 2007*

Peethambar V (No. 14565858H now JC-762446K), 10 Apr 2008/01 Apr 2008*

Piar Chand Singh Rana (No. 14568555Y now JC-762451P), 02 May 2008/01 May 2008*

Ramesh Kumar Dangwal (No. 14565850W now JC-761930K), 01 Apr 2008/01 Jan 2008*

Sanir Das (No. 14614476L now JC-762444Y), 21 Apr 2008/01 Mar 2008*

Suresh Chandra Saini (No. 14567331M now JC-762168F), 09 Apr 2008/22 Dec 2007*

Tota Ram Sharma (No. 14568532Y now JC-762449X), 01 May 2008/01 May 2008*

Udai Singh (No. 14568550A now JC-762450M), 01 May 2008/01 May 2008*

Vijay Shivram Kada (No. 14614475H now JC-762169K), 01 Apr 2008/01 Mar 2008*

Hav to be Nb Sub DVR (MT)

Bal Chand Yadav (No. 14554313L now JC-762469L), 01 May 2008/01 May 2008*

Dipak Basumatari (No. 14551340K now JC-762079H), 24 Mar 2008/01 Jan 2008*

Mahendrapal Gautam (No. 14550179N now JC-762072Y), 02 Feb 2008/01 Jan 2008*

Narendra Kumar (No. 14552847X now JC-762164L), 17 Mar 2008/01 Mar 2008*

Parasnath Sah (No. 13890296K now JC-762160P), 26 Mar 2008/01 Mar 2008*

Prakash Singh (No. 14552169H now JC-762166W), 01 Apr 2008/01 Apr 2008*

Sunder Lal (No. 14551988A now JC-762161X), 24 Mar 2008/01 Mar 2008*

Hav to be Nb Sub EE Mech

Jose PM (No. 14557498H now JC-762221F), 01 Apr 2008/01 Apr 2008*

Sita Ram (No. 14557646I) now JC-762222K), 01 Apr 2008*
01 Apr 2008*

Vijender Singh (No. 14557711X now JC-762223M), 01 Apr 2008/01 Apr 2008*

Has to be Nb Sub PTR & DUTIR

Bimesh Kumar Mishra (No. 14549443K now JC-762301Y),
04 Apr 2008/01 Apr 2008*

Has to be Nb Sub Rec Meeh

Arvind Prasad (No. 14553864K now JC-762459F), 01 May 2008/01 May 2008*

Vijaya Shankar Ram (No. 14553363K now JC-762458Y),
01 May 2008/01 May 2008*

Has to be Nb Sub SKT

Jacob Varghese (No. 14547628M now JC-762238P), 01 Apr 2008/01 Apr 2008*

Kishore Kantu Das (No. 14547463Y now JC-762231E),
28 Mar 2008/01 Feb 2008*

Pau Ram (No. 14546128I now JC-761941W), 18 Jan 2008
01 Jan 2008*

Prabhas Chandra Dora (No. 14614477N now JC-762228I),
05 Mar 2008/01 Feb 2008*

Rajinder Singh Ghotra (No. 14546127A now JC-762225X),
13 Mar 2008/01 Jan 2008*

Subhash Chandra Yadav (No. 14547032M now JC-
762230H), 10 Mar 2008/01 Feb 2008*

Suresh Chandra Sharma (No. 14547030F now JC-762229N),
20 Mar 2008/01 Feb 2008*

Thombare Babasheh R (No. 14603127F now JC-762234Y),
17 Mar 2008/01 Mar 2008*

Has to be Nb Sub TCM (GCE)

Mange Ram (No. 14563007X now JC-762239X), 01 Apr 2008
01 Apr 2008*

Shashi Kam (No. 14562053M now JC-762240N), 01 Apr 2008/01 Apr 2008*

Sugathan VT (No. 14562622P now JC-762241P), 01 Apr 2008
01 Apr 2008*

Has to be Nb Sub TCM(I)

Balwan Singh (No. 14566118A now JC-762299M), 01 Apr 2008/01 Apr 2008*

Has to be Nb Sub Tech A-Veh

Naresh Kumar (No. 14620596A now JC-762187M),
12 Mar 2008/01 Jan 2008*

Ramandeep Singh (No. 14620593M now JC-762186K),
08 Mar 2008/01 Jan 2008*

Suresh Chandra Kushwaha (No. 14620552H now JC-
762185F), 08 Mar 2008/01 Jan 2008*

Has to be Nb Sub Tech B-Veh

Abhay Kumar Dwivedi (No. 14606937P now JC-762182N),
11 Mar 2008/01 Jan 2008*

Arvinda Prasad Singh (No. 14586963M now JC-761971N),
09 Feb 2008/01 Dec 2007*

Bhabagrahi Biswal (No. 14609394Y now JC-762190M),
17 Mar 2008/01 Jan 2008*

Dharan Prakash Chaudhan (No. 14612282K now JC-
762194H), 01 Mar 2008/01 Jan 2008*

Gena Lal Prasad (No. 14610390P now JC-762039F), 09 Jan 2008/01 Jan 2008*

Laxmi Shanker Tiwari (No. 14605061P now JC-762001X),
14 Feb 2008/01 Jan 2008*

Md Jameel Ahmed (No. 14607678K now JC-762170Y),
07 Mar 2008/20 Jan 2008*

Narendra Singh (No. 1460794H now JC-762189X), 17 Mar 2008/01 Jan 2008*

Nityananda Bandypadhyay (No. 14585395A now JC-
762175X), 17 Mar 2008/01 Dec 2007*

Om Prakash (No. 14611445A now JC-762192X), 18 Mar 2008/01 Jan 2008*

Raj Singh (No. 14595955P now JC-762177H), 29 Mar 2008/01 Dec 2007*

Ramesh Chandra Pal (No. 14611869W now JC-762193A),
11 Mar 2008/01 Jan 2008*

Sanjeev (No. 14598342A now JC-762178L), 01 Dec 2007
01 Dec 2007*

Satish Chandra Sharma (No. 14611222H now JC-
762044M), 24 Mar 2008/01 Jan 2008*

Shiv Kumar Bhagat (No. 14583421X now JC-762174P),
28 Apr 2008/01 Dec 2007*

Subhash Chandra (No. 14597237X now JC-762179N),
08 Mar 2008/01 Dec 2007*

Vijay Narayan Ram (No. 14606213X now JC-762181L),
27 Mar 2008/01 Jan 2008*

Has to be Nb Sub Tech Comptr

Jadhav Bhagwat Viswanath (No. 14618246P now JC-
762200L), 01 Apr 2008/01 Apr 2008*

R Babu Samy (No. 14617911A now JC-762198Y), 10 Mar 2008/01 Feb 2008*

S T Rajan (No. 14618016F now JC-762199F), 01 Mar 2008/01 Mar 2008*

Has to be Nb Sub Tech Elect

Arun Prakash Richharia (No. 14607752A now JC-
762129H), 12 Feb 2008/01 Dec 2007*

Heman Kumar Sarwa (No. 14600585M now JC-762126A),
25 Feb 2008/01 Dec 2007*

Nitya Nand Roy (No. 14604405W now JC-762125M),
21 Feb 2008/01 Dec 2007*

Hav to be Nb Sub Tech GCE

K Durga Das (No. 14619348X now JC-762208X), 14 Mar 2008/01 Jan 2008*

Pardeep T (No. 14618653X now JC-762207P), 10 Mar 2008/01 Jan 2008*

Hav to be Nb Sub Tech Gun

Ashim Kumar Banerjee (No. 14618317L now JC-762211X), 15 Mar 2008/01 Dec 2007*

Dharmendra Kumar Pandey (No. 14618118X now JC-762210P), 14 Mar 2008/01 Dec 2007*

Natwar Singh Bagawat (No. 14618631Y now JC-761910W), 20 Jan 2008/01 Dec 2007*

Yogendra Singh (No. 14615904L now JC-762209A), 10 Mar 2008/01 Dec 2007*

Hav to be Nb Sub Tech Radio

Amit Kumar (No. 14617933Y now JC-761877K), 01 Feb 2008/01 Dec 2007*

Bhanwar Lal (No. 14616088M now JC-762149W), 03 Mar 2008/10 Feb 2008*

Pradeep Kumar (No. 14615060A now JC-762147L), 14 Mar 2008/10 Feb 2008*

Purna Kanta Burgagohain (No. 14618341F now JC-762155K), 25 Feb 2008/10 Feb 2008*

Ravinder Singh (No. 14603136H now JC-762144X), 01 Mar 2008/10 Feb 2008*

Saroj Kumar Jena (No. 14615511P now JC-762148N), 28 Feb 2008/10 Feb 2008*

Soumendra Nath Dey (No. 14617355P now JC-762153Y), 01 Apr 2008/10 Feb 2008*

Yashveer Singh (No. 14579286X now JC-761864M), 17 Jan 2008/01 Dec 2007*

Hav to be Nb Sub VM (AFV)

A L Arul Doss (No. 14559153A now JC-762212A), 28 Mar 2008/01 Mar 2008*

Ganga Bishnu (No. 14562312X now JC-762218F), 01 Apr 2008/01 Apr 2008*

Krishan Kumar (No. 14562307M now JC-762216W), 01 Apr 2008/01 Apr 2008*

Parmod Singh Bist (No. 14560277F now JC-762214L), 07 Mar 2008/01 Mar 2008*

Prakash Chand (No. 1452293X now JC-762217Y), 01 Apr 2008/01 Apr 2008*

Subhash Chand (No. 14562257M now JC-762215N), 01 Apr 2008/01 Apr 2008*

Hav to be Nb Sub Welder

Rajbir Singh (No. 14553069K now JC-762285M), 07 Apr 2008/01 Feb 2008*

*(Gtd ante dated seniority)

N. K. KASHMTRA
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 465, dated 27 August 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Nb Sub

Hav Chand Ram (No. 13688416P now JC-404238L), 04 Feb 2008

Hav Dharam Pal Singh (No. 13688422H now JC-404240H), 01 Mar 2008

Hav Chavan Raghunath Babu Rao (No. 13688798K now JC-404241L), 01 Mar 2008

Hav Syed Mohibbul Hasan (No. 13691548N now JC-404242N), 09 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and alices wef 13 Mar 2008)

Hav Shashi Ranjan Trivedi (No. 13689147A now JC-404243W), 17 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and alices wef 18 Mar 2008)

Hav Jayanti Prasad Pandey (No. 13689195A now JC-404244Y), 24 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and alices wef 18 Mar 2008)

Hav Rawat Singh (No. 13688192A now JC-404246K), 01 Apr 2008

Hav Om Narayan Singh (No. 13688803K now JC-404249X), 01 Apr 2008

Hav V Saminathan (No. 13691219X now JC-404250M), 17 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and alices wef 01 Apr 2008)

Hav Govind Singh (No. 13687906W now JC-404251P), 27 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and alices wef 01 Apr 2008)

Hav Lad Chhagan Sham Rao (No. 13689220N now JC-404255L), 01 Apr 2008

Hav Viresh Kumar Sharma (No. 13687476X now JC-404256N), 09 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and aliees wef 25 Apr 2008)

Hav Maheshwar (No. 13691827Y now JC-404258Y), 01 May 2008

Hav Hardev Singh (No. 13689566X now JC-404260W), 10 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and aliees wef 01 May 2008)

Hav Narendra Singh (No. 13688086F now JC-404261Y), 05 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and aliees wef 01 May 2008)

Hav Indra Singh Rautela (No. 13689395W now JC-404262F), 12 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and aliees wef 01 May 2008)

Hav Sudhir Singh (No. 13689225M now JC-404263K), 01 May 2008

Hav Kaptan Singh (No. 13687561A now JC-404264M), 20 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and aliees wef 01 May 2008)

Hav Rohitashawa Kumar (No. 13690523P now JC-404265P), 01 May 2008

Hav Patil Ramrao Soma (No. 13689235W now JC-404266X), 01 Jun 2008

J ROY CHOWDHURY

Under Secy.

No. 466, dated 27 August 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Infantry

8 GR

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Deo Prakash Roy (No. 5751154W now JC-623832I), 01 Mar 2008

Hav/Clk Rameshwar Prasad (No. 5751156F now JC-623833N), 01 Apr 2008

Hav/Clk Thakur Singh Bisht (No. 5751162P now JC-623834W), 01 Apr 2008

Hav/Clk Prem Singh Bisht (No. 5751163X now JC-623835Y), 01 Apr 2008

To be Nb Sub (GD)

Hav Laxman Pun (No. 5751880L now JC-623827A), 01 Feb 2008

Hav Resham Bahadur Gurung (No. 5751970M now JC-623828H), 02 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Udaya Bir Singh (No. 5751502M now JC-623829I), 21 Mar 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Mahendra Thapa (No. 5756133K now JC-623830A), 14 Feb 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Bajindra Bahadur Thapa (No. 5751366F now JC-623831H), 01 Mar 2008

Hav Tara Bahadur Rana (No. 5751755F now JC-623822I), 13 Mar 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Tilak Bahadur Pun (No. 5751460L now JC-623823K), 24 Feb 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Tilak Bahadur Thapa (No. 5751771Y now JC-623824M), 31 Mar 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Lil Bahadur Thapa (No. 5751832L now JC-623825P), 31 Mar 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar Thapa (No. 5752372F now JC-623826X), 01 Mar 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Sher Singh (No. 3986581H now JC-520769E), 22 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Balinder Singh (No. 3987043F now JC-520770W), 03 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Dharm Chand (No. 3983831N now JC-520771Y),
01 Mar 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Dec 2007
without effect on pay and allowances)

Hav Balinder Singh (No. 3987049H now JC-520772F),
03 May 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Bodh Raj (No. 3987910A now JC-520773K), 24 Apr
2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Manohar Lal (No. 3987316Y now JC-520774M),
22 May 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Dharam Chand (No. 3984730M now JC-520775P),
08 May 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Bhim Singh Sharma (No. 3986618Y now JC-520776X),
17 May 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Madan Lal (No. 3987176X now JC-520777A),
03 May 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Des Raj (No. 3986750Y now JC-520778H), 26 Apr
2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Manohar Lal (No. 3986640K now JC-520779L),
02 Jun 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Feb 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Ishwar Dass (No. 3984299Y now JC-520780A),
01 Mar 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Feb 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Rajeev Patial (No. 3987781L now JC-520781H),
29 Apr 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Basant Kumar (No. 3987380W now JC-520782L),
21 Apr 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Rakesh Kumar (No. 3986647N now JC-520783N),
20 May 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Surender Kumar Thakur (No. 3988684A now JC-
520784W), 09 Mar 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Ranjit Singh (No. 3984714P now JC-520785Y),
07 Mar 2008

Hav Atal Singh (No. 3988983Y now JC-520786F), 03 May
2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Mar 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Suram Singh (No. 3987191M now JC-520787K),
05 May 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Mar 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Janak Raj (No. 3984820N now JC-520788M), 01 Apr
2008

Hav Amar Jit (No. 3985054P now JC-520789P), 01 Apr
2008

Hav Dayal Singh (No. 3985068P now JC-520790K),
17 Apr 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Ram Pal (No. 3985590X now JC-520791M), 01 Apr
2008

Hav Ramesh Chand (No. 3985887Y now JC-520792P),
01 Apr 2008

Hav Jagdev Raj Singh (No. 3986748F now JC-520793X),
15 May 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Surjeet Singh (No. 3986307L now JC-520794A),
15 May 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Uday Singh (No. 3985629Y now JC-520795H), 01 Apr
2008

Hav Kesar Singh (No. 3988791F now JC-520796L),
02 Apr 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Kashmir Singh (No. 3989127N now JC-520797N),
02 Apr 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Kulbir Singh (No. 3985622P now JC-520798W),
10 May 2008*

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Amin Chand (No. 3986658A now JC-520799Y),
31 May 2008—

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar (No. 3986670F now JC-520800H),
31 May 2008—

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Subash Chander (No. 3986878K now JC-520801L),
31 May 2008—

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Kewal Krishan (No. 3986886H now JC-520802N),
31 May 2008—

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Kishan Chand Vaidya (No. 3986891N now JC-
520803W), 31 May 2008—

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Dila Ram (No. 3986896M now JC-520804Y), 31 May
2008—

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Kasturi Lal (No. 3985604M now JC-520805F),
14 May 2008—

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Pathan Inayatkhān Mahebbkhān (No. 2787724K
now JC-459853H), 16 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Magadum Tanuj Ramachandra (No. 2783118W now
JC-459854L), 29 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Christaraj Arokswamy (No. 2783418X now JC-
459855N), 27 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Mehare Ramkrishna Gopal (No. 2783648L now JC-
459856W), 19 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Thikpurle Chandrakant Babu (No. 2784836Y now
JC-459857Y), 05 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Sandal Laxman Fakarchand (No. 2785441K now JC-
459862K), 01 Jun 2008

Hav Yallapa Avadar (No. 2785804H now JC-459863M),
01 Jun 2008

Hav Rasal Subhash Sadashiv (No. 2786190X now JC-
459864P), 01 Jun 2008

Hav Vilas Ananda Jadhav (No. 2787074F now JC-
459865X), 01 Jun 2008

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Prashanta Kumar Rath (No. 2783146H now JC-
459858F), 01 Jun 2008

Hav/Clk Dhanaraya Patil (No. 2778452N now JC-459859K),
01 Jun 2008

Hav/Clk Uttam Kumar Biswas (No. 2788764X now JC-
459860Y), 01 Jun 2008

Hav/Clk Chander Shekar Raman (No. 2788765A now JC-
459861F), 01 Jun 2008

JAK RIF

To be Nb Sub (GD)

Hav Som Dutt (No. 13751422A now JC-580722A), 06 Jun
2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 15 Feb 2008)

Hav Tirath Singh (No. 13750604F now JC-580723H),
15 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 May 2008)

Hav Manjit Singh Kaushal (No. 13753316A now JC-
580724L), 14 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 May 2008)

Hav Shabir Ahmed (No. 13753327M now JC-580725N),
02 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Jun 2008)

Hav Hem Raj (No. 13750630H now JC-580726W), 05 Jun
2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Jun 2008)

Hav Parshotam Kumar (No. 13750085K now JC-580727Y),
13 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2008)

Hav Tanka Rana (No. 13750698K now JC-580728F),
01 Jun 2008

Hav Lekh Ram (No. 13751170Y now JC-580729K), 01 Jun 2008

Hav Mejar Singh (No. 13752890M now JC-580730Y),
02 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2008)

Hav Dalbir Singh (No. 13750928M now JC-580731F),
01 Jun 2008

Hav Sarwan Singh, SM (No. 13752268Y now JC-580732K),
01 Jun 2008

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Hukam Singh (No. 3179946H now JC-490289A),
01 Jun 2008

Hav Hari Bax Singh (No. 3180755A now JC-490290P),
01 Jul 2008

To be Nb Sub (Cik)

Hav Cik Naresh Kumar (No. 3178886M now JC-490291X),
01 Jun 2008

Hav Cik John V S (No. 3178901W now JC-490292A),
01 Jul 2008

Hav Cik Gopala Krishna Pillai P J (No. 3178963W now JC-490293H), 01 Jul 2008

JAK LI

To be Nb Subedar (GD&Cik)

Hav Nasreen Ahmed Mir (No. 9087176K now JC-593643K),
12 Apr 2008

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Mar 2008)

Hav Tilak Raj (No. 9087558W now JC-593644M), 18 May 2008

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008)

Hav Raj Kumar (No. 9086034F now JC-593645P), 01 Jun 2008

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Apr 2008)

Hav Subash Chander (No. 9086822M now JC-593646X),
01 Jun 2008

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Apr 2008)

THE MAHAR REGIMENT

To be Nb Subedar

Hav Lalit Chand (No. 4559653A now JC-569988M), 06 Oct 2007@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 24 May 2006)

Hav Man Singh (No. 4557540Y now JC-569989P), 21 Apr 2007@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2007)

Hav Govind Laxman Shinde (No. 4557087M now JC-569990K), 21 Oct 2007#

Hav Shinde Abhay Shravan (No. 4557890L now JC-569991M), 21 Oct 2007#

Hav Mohite Sachinder Hanuman (No. 4557969N now JC-569992P), 21 Oct 2007#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 21 Aug 2007)

Hav Balak Singh (No. 4560223H now JC-569993X), 24 Sep 2007##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2007)

Hav Cik (GD) Biswajit Chakraborty (No. 4562544Y now JC-569994A), 08 Sep 2007\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2007)

Hav Someshwar Prasad (No. 7430547M now JC-569995H),
01 Sep 2007

Hav Murl Manohar Das (No. 4560414X now JC-569996L),
01 Sep 2007

Hav Satyavir Singh (No. 4560242N now JC-569997N),
28 Sep 2007\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2007)

Hav Vikram Singh (No. 4559858P now JC-569998W),
01 Sep 2007

Hav Bhopale Vijay Maruti (No. 4560836H now JC-569999Y),
08 Sep 2007\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2007)

Hav Suresh Chandra (No. 8031240W now JC-570000A),
01 Oct 2007

Hav Ramayan Prasad Shrivastava (No. 8032668P now JC-570001H), 26 Oct 2007&

Hav Ratan Kumar Kanojia (No. 4561292L now JC-570002L),
02 Nov 2007&

& (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2007)

Hav Ck (GD) Shiv Kumar (No. 4562545F now JC-570003N), 01 Nov 2007

Hav Ck (GD) Pailwan Laxman Baburao (No. 4556323W now JC-570004W), 01 Nov 2007

Hav Ck (GD) Chandra Sekhar Yadav (No. 4557229Y now JC-570005Y), 01 Nov 2007

Hav Afsar Singh (No. 4556697M now JC-570006F), 05 Nov 2007&&

Hav Karan Chandra Yadav (No. 4559864H now JC-570007K), 05 Nov 2007&&

&&(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2007)

Hav Rajender Singh Yadav (No. 4558977Y now JC-570008M), 01 Nov 2007

Hav Sen Singh (No. 4559080F now JC-570009P), 01 Nov 2007

Hav Yogendra Nath Yadav (No. 4559969M now JC-570010K), 05 Nov 2007

+(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2007)

Hav Rajendra Prasad Sihag (No. 4561480M now JC-570011M), 02 Nov 2007 +

++(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2007)

Hav Ck (GD) Ranjee (No. 4553589X now JC-569798A), 01 Aug 2006

Hav Ck (GD) Sural Singh Bisht (No. 4554047A now JC-569799H), 01 Aug 2006

Hav Ck (GD) Lal Mani (No. 4556349L now JC-569818H), 03 Aug 2006@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2006)

Hav Ck (GD) Kshirsagar Ragunath Niveruti (No. 4556483W now JC-569819L), 01 Sep 2006

Hav Ck (GD) Muralidhara Kurup C N (No. 4556510P now JC-569820A), 08 Oct 2006@&

@&(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006)

Hav Ck (GD) Patel Girvesh Kumar Mulajee Bhai (No. 4556819L now JC-569821H), 07 Sep 2006

#(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2006)

Hav Ck (GD) Gopal Singh Chaudhan (No. 4562249W now JC-569822L), 01 Oct 2006

Hav Ck (GD) Satyaveer Singh (No. 4562230L now JC-569823N), 03 Oct 2006##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2006)

Hav Ck (GD) Bijay Kumar (No. 4557040F now JC-569824W), 21 Oct 2006\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2006)

Hav Ck (GD) Nand Lal Tiwari (No. 4557210A now JC-569825Y), 03 Oct 2006\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2006)

Hav Rajeev Kumar Rai (No. 4560251P now JC-569979L), 22 Feb 2007@@

@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2007)

Hav Suresh Singh (No. 4560364X now JC-569980I), 01 Oct 2007@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2007)

Hav Indar Kumar Akhot (No. 4561289L now JC-569983H), 10 Apr 2007#

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2007)

Hav Chatar Singh (No. 4557439V now JC-569982L), 05 Sep 2007##

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2007)

Hav Umesh Prasad (No. 4554593M now JC-569983N), 01 Oct 2007

Hav Mahipal Singh (No. 4558993W now JC-569984W), 05 Oct 2007\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2007)

Hav Yogendra Yadav (No. 4559032F now JC-569985Y), 05 Oct 2007\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2007)

Hav Harish Narayan Kashyap (No. 4560244Y now JC-569986F), 01 Oct 2007

Hav Uttam Singh Bhadoriya (No. 4561255X now JC-569987K), 01 Oct 2007

Hav Nitya Nand (No. 4557305A now JC-570012P), 26 Oct 2007@

@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 30 Jul 2007)

Hav Vijay Singh (No. 4557312W now JC-570013X), 16 Oct 2007@@

Hav Ram Lal Charamkur (No. 4557118F now JC-570014A), 16 Oct 2007@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 13 Aug 2007)

Hav Raghunath Prasad (No. 4557477P now JC-570015H),
27 Oct 2007#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Sep 2007)

Hav Rajesh Giri (No. 8032249X now JC-570016L), 01 Sep
2007

Hav Prithvipal Singh (No. 4561250Y now JC-570017N),
01 Nov 2007##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Oct 2007)

Hav Indra Singh (No. 4559091N now JC-570018W), 01 Nov
2007

Hav Dabhade Rajaram Abaji (No. 4558628P now JC-
570019Y), 05 Nov 2007\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Nov 2007)

Hav Clk (GD) Surendra Pal (No. 4557155P now JC-570020N),
01 Dec 2007

Hav Clk (GD) Suresh Singh (No. 4557171M now JC-
570021W), 01 Dec 2007

Hav Clk (GD) Mohan Lal (No. 4557493M now JC-570022Y),
01 Dec 2007

Hav Uttam Bhau Kamble (No. 4559451Y now JC-570064L),
29 Nov 2007@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Oct 2007)

Hav Rajender Singh (No. 4554323X now JC-570065N),
01 Nov 2007

Hav Clk (GD) Daya Ram (No. 4184877X now JC-570066W),
01 Feb 2008

Hav Birendra Nath Das (No. 13616871F now JC-570067Y),
01 Feb 2008

Hav Shri Krishan (No. 4560104M now JC-570068F), 07 Feb
2008@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allow-
ances wef 01 Feb 2008)

Hav Ashok Kumar Chauhan (No. 4560227Y now JC-
570069K), 01 Feb 2008

Hav Subhash Chandra (No. 4559259P now JC-570070Y),
01 Feb 2008

Hav Clk (GD) Satyavir (No. 4557538F now JC-570071F),
01 Mar 2008

Hav Clk (GD) Shiv Narayan Dagar (No. 4557674X now JC-
570072K), 01 Mar 2008

Hav Clk (GD) Mahesh Chandra Joshi (No. 4557678N now
JC-570073M), 01 Mar 2008

S ASHRAF
Under Secy.

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 467, dated 27th Aug 2008.—The President is pleased
to make the following promotions:—

The Under mentioned Scientists 'B' to be Scientist (s) 'C'
in the Defence Research & Development Service with effect
from the date shown against their names in the pay Scale of
Rs. 10,000-325-15,200:—

Name, Estt/Lab and Date

Shri Armit Kumar Saini, CFEES, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Pranay Matkar, CFEES, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Prashant Ramdas Lonkar, CFEES, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Mukul Anand Mittal, CFEES, Delhi, 01 Jul 2008

Ms. Meeta Muzalda, CFEES, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Ovas Rasool, CFEES, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Vishal Dwivedi, CFEES, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Gulshan Singla, CFEES, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Amit Pasi, CFEES, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Trilochan Singh Rathore, CFEES, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Amit Tyagi, CFEES, Delhi, 01 Jul 2008

Shri P S Nagaraj, DARE, Bangalore, 01 Jul 2008

Ms. Archana Rani, DARE, Bangalore, 01 Jul 2008

Shri Ashiq Asharaf VV, DARE, Bangalore, 01 Jul 2008

Shri Yashwant Singh, DARE, Bangalore, 01 Jul 2008

Smt. Deepa Prabhu, DEBEL, Bangalore, 01 Jul 2008

Shri Rishi Kumar Verma, DEBEL, Bangalore, 01 Jul 2008

Smt. Anuya Venkatesh, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Saurabh Inamdar, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Rajeev Kumar, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Ajay Rathee, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Yogesh Kumar, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Chandra Prakash, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2008

Smt. Madhuri Yadav, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2008

Smt. Kiranmala Laishram, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Pavan Kumar Kaushik, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Ashok Kumar Koolma, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Mukesh Kumar Jindal, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2008

Smt. Sakshi Gupta, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2008

Smt. Rajni Malhotra, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Deepak Kumar, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Nagaraja M, LRDE, Bangalore, 01 Jul 2008

Shri Anand Sai Verma, LRDE, Bangalore, 01 Jul 2008

Shri Vivek Kumar, LRDE, Bangalore, 01 Jul 2008

Shri Yogesh Prabhakar Gharote, LRDE, Bangalore, 01 Jul
2008

Shri Hemprasad Ghanta, LRDE, Bangalore, 01 Jul 2008

Shri Ramesh Maji, LRDE, Bangalore, 01 Jul 2008

Shri Sachin Rajesh Verma, LRDE, Bangalore, 01 Jul 2008

Shri Amala Sanjohn Antony R, LRDE, Bangalore, 01 Jul 2008

Shri Vishnu OC, LRDE, Bangalore, 01 Jul 2008

Shri Ajai Kumar Shrivastava, LRDE, Bangalore, 01 Jul 2008

Shri Ravi Domala, LRDE, Bangalore, 01 Jul 2008

Shri Veer Singh Gangwar, LRDE, Bangalore, 01 Jul 2008

Shri Neeraj Kumar, MTRDC, Bangalore, 01 Jul 2008

Shri Naveen Kumar Sharma, MTRDC, Bangalore, 01 Jul 2008

Ms. Pooja Srivastava, INMAS, Delhi, 01 Jul 2008

Ms. M Memita Devi, INMAS, Delhi, 01 Jul 2008

Smt. Shilpi Modi, INMAS, Delhi, 01 Jul 2008

Dr. Anant Narayan Bhatt, INMAS, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Vibhu Sharma, SPIC, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Vijay Kumar Mittal, SPIC, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Tarun Kumar Sahoo, SPIC, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Partha Jyoti Gayan, SPIC, Delhi, 01 Jul 2008

Shri Manjinder Singh, SPIC, Delhi, 01 Jul 2008

T ABDURRASSAK

Jt. Dir (Pers)

ARMY BRANCH

No. 468, 28th Aug 2008. —The President is pleased to permit the under mentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons and transfer them to Regular Reserve of Officers (Class X), under SAI 10/S/63 as amended:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC No., Rank, Name, Arm/Ser and EDR Date

IC-43324, Lt Col, Rajesh Kumar, Arty, 27 Jan 2007(AN)

IC-41626, Lt Col, Anil Tewari, INT, 25 Sep 2006(AN)

IC-42254, Lt Col, Kamade Kiran Ram Rao, ALC, 12 Nov 2006(AN)

IC-43451, Lt Col, Ravi Kumar, AOC, 21 Sep 2006(AN)

IC-43131, Lt Col, GK Poonjati, AOC, 05 Dec 2005(AN)

IC-43552, Lt Col, Gurpreet Singh, AOC, 13 May 2006(AN)

IC-38793, Lt Col, Anil Kumar Mehta, INF, 31 Aug 2005(AN)

IC-49575, Lt Col, Naveen Mehrotra, INF, 06 Jul 2005(AN)

IC-45322, Lt Col, Lalit Chand Sood, AC, 19 Jan 2006(AN)

IC-54940, Maj, Bhartendu Narera, AC, 21 Feb 2006(AN)

IC-45240, Lt Col, Rakesh Malik, Engrs, 30 Apr 2006(AN)

IC-42849, Lt Col, Chaturvedi Devesh, Engrs, 07 Nov 2006(AN)

IC-41660, Lt Col, Han Kant, Engrs, 05 Sep 2006(AN)

IC-42226, Lt Col, Tapan Kumar Bhattacharya, Engrs, 31 Oct 2006(AN)

IC-45571, Lt Col, Ramesh Kumar M, Engrs, 19 Sep 2006(AN)

IC-38267, Lt Col, Harish Kumar (Sgt), Engrs, 05 Sep 2006(AN)

IC-41171, Lt Col, Anil Dubey, Engrs, 26 Oct 2006(AN)

IC-40843, Lt Col, Ashish Ghosh, Engrs, 11 Nov 2006(AN)

IC-42736, Lt Col, DS Dhillon, Engrs, 03 Jul 2006(AN)

IC-43119, Lt Col, Ashok Malik, Engrs, 16 May 2006(AN)

IC-43323, Lt Col, Rakesh Rastogi, Sigs, 23 Oct 2006(AN)

IC-42991, Lt Col, Vivek Bhatnagar, Sigs, 11 Jul 2006(AN)

IC-43640, Lt Col, Pradeep Mehta, Sigs, 11 Jul 2006(AN)

IC-45117, Lt Col, N Ramesh, Sigs, 30 Sep 2006(AN)

IC-43179, Lt Col, PR Menon, VSM, Sigs, 30 Sep 2006(AN)

IC-49872, Lt Col, Pawan S Yadav, Sigs, 10 Nov 2006(AN)

IC-43467, Lt Col, Arvind Kumar, Sigs, 10 Nov 2006(AN)

SK CHAKRABORTY

Jt. Dir

MS-PR

(ARMY BRANCH)

No. 469, dated 28 Aug 2008. —The President is pleased to make the promotion:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Major to be Lt Col

The date of promotion in respect of MR-06372F Lt Col Rishiraj Narayan Verma at ser no. (k) of the gazette notification published on 10 May 2008 is amended as follows:—

For :— With effect from 07 Jun 2005

Read :— With effect from 16 Dec 2004

G RAVINDRANATH

Brig

Dy DGA/FMS (Pers)